



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28, 1982 (भाद्रपद 6, 1904)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28, 1982 (BHADRA 6, 1904)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications Regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1982

सं० 1805, दिनांक 16 जुलाई 1982—राष्ट्रपति;
निम्नलिखित अधिकारियों को 31-7-1982 (अपराह्न) से
अगला आवेश होने तक रक्षा मंत्रालय में उप सचिव के रूप में
नियुक्त करते हैं :—

श्री एच० सी० अरोड़ा केन्द्रीय सचिवालय सेवा, चयन
ग्रेड, चयन सूची (1980) ।

श्री वी० वाई० नारायण, के० स० से० चयन ग्रेड,
चयन सूची (1980) ।

श्री एस० सी० जोशी, के० स० से०, चयन ग्रेड, चयन
सूची (1980) ।

सं० 1806, दिनांक 19 जुलाई, 1982—महानिदेशक,
रक्षा भूमि और छावनी के कार्यालय से स्थानान्तरण होने पर,

1—214GI/82

राष्ट्रपति, रक्षा भूमि और छावनी सेवा के अधिकारी श्री
फतेहउल्ला को 9-7-1982 (पूर्वाह्न) से, रक्षा मंत्रालय में,
अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० 1807, दिनांक 26 जुलाई, 1982—नियन्त्रक रक्षा
लेखा के कार्यालय से स्थानान्तरण होने पर, राष्ट्रपति, भारतीय
रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी, श्री गौतम सेन, को 21-7-82
(पूर्वाह्न) से रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर नियुक्त
करते हैं ।

सं० 1808, दिनांक 24 जून, 1982—राष्ट्रपति, रक्षा
मंत्रालय (रक्षा पूर्ति विभाग) के संविदा क्रय अधिकारी, श्री
ए० के० जैन, की प्रतिनियुक्ति की अवधि और एक वर्ष के लिए
अर्थात् 21 अप्रैल, 1983 (अपराह्न) तक बढ़ाने हैं ।

सं० 1809, दिनांक 24 जुलाई, 1982—रक्षा मंत्रालय
में निश्चित कार्यकाल की बढ़ाई गई अवधि समाप्त होने पर
भारतीय प्रशासनिक सेवा (राज० 62) के अधिकारी, श्री

(1181)

महेन्द्र सिंह की सेवाएं, 15 जुलाई, 1982 (अपराह्न) से राजस्थान सरकार को सौंपी जाती हैं।

सं० 1810, दिनांक 12 जुलाई, 1982—अवकाश ग्रहण की आयु प्राप्त होने पर, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में डेस्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे स्थाई अनुभाग अधिकारी श्री जे० एस० जोशी की 31 जुलाई, 1982 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

एल० एन० मेहता
अवर सचिव

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं० 1811, दिनांक 3 अगस्त, 1982—अधिवर्ष की आयु प्राप्त करने पर श्री सभाजीत सिंह, स्थायी ए० सी० एस० ओ० 31 जुलाई, 1982 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त और 1 अगस्त, 1982 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थान्तरित।

दुसी चन्द
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं० 1812, दिनांक 30 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा

डा० एस० एम० वीरभद्रप्पा को रक्षा भूभाग अनुसंधान प्रयोगशाला, दिल्ली में तारीख 19 जून, 1982 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वैज्ञानिक “सी” के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर।

सं० 1813, दिनांक 22 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा

नौसेना भौतिक तथा समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, कोचीन के निम्नलिखित “बी” श्रेणी के वैज्ञानिकों को इसी प्रयोगशाला में तारीख 1 जुलाई, 1981 (पूर्वाह्न) से वैज्ञानिक “सी” के पदों पर

श्री ए० उन्नीकृष्णन,

श्री एस० अन्ततनारायनन्

श्री ए० के० प्रकाश

श्री बी० एस० मूर्ति

विस्फोटक अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, पूणे के निम्नलिखित (बी) श्रेणी के वैज्ञानिकों को इसी प्रयोगशाला में तारीख 1 जुलाई, 1981 (पूर्वाह्न) से वैज्ञानिक “सी” के पदों पर :—

श्री एन० एल० नरयानी

श्री एम० एल० वैद्य

अनुसंधान तथा विकास स्थापना (इंजीनियर्स) पूणे के निम्नलिखित “बी” श्रेणी के वैज्ञानिकों को इसी स्थापना में तारीख 1 जुलाई, 1981 (पूर्वाह्न) से वैज्ञानिक “सी” के पदों पर :—

श्री बी० के० गाडबोल

श्री एन० के० चोपड़ा,

एस० एस० जामवाल
सहायक निदेशक (कार्मिक)

रक्षा उत्पादन विभाग

सं० 1814, दिनांक 15 मई, 1982—राष्ट्रपति सहोदय निम्नलिखित पद स्थायी करते हैं :—

रक्षा गुणवत्ता समाम्वासन सेवा

श्री एस० के० चड्ढा स्थानापन्न डी० सी० एस० ओ० सी० आई० (एस० बी०), देहू रोड को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी—1 अप्रैल 1973।

श्री वी० पी० चड्ढा स्थानापन्न प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी सी० आई० (एस० बी०) देहू रोड को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, 1 अप्रैल 1973।

डा० ए०, मुखर्जी स्थानापन्न डी० सी० एस० ओ०, सी० आई० एल०, बगलौर को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी 25 जुलाई, 1973।

श्री पी० के० गंगोपाध्याय, स्थानापन्न डी० सी० एस० ओ० धातुओं का निरीक्षणालय, इच्छापुर को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, —1 अप्रैल, 1977।

श्री एन० सी० जैन, स्थानापन्न डी० सी० एस० ओ० सी० आई० जी० एस०, कानपुर को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी—1 अप्रैल, 1977।

श्री एस० एल० खन्ना, स्थानापन्न डी० सी० एस० ओ० डी० आई० (ए०), एच० क्यू०, नई दिल्ली को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी,—1 अप्रैल, 1977।

श्री टी० जी० वीबडे, स्थानापन्न डी० सी० एस० ओ० डी० आई० (एस०), एच० क्यू०, नई दिल्ली को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी—1 अप्रैल, 1977।

श्री बी० आई० रामास्वामी, स्थानापन्न प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, सी० आई० (मैट) इच्छापुर को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी—1 अप्रैल, 1977।

डा० एस० बी० रे, स्थानापन्न प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, सी० आई० (एम० ई०), किरकी को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी,—1 अप्रैल, 1977।

श्री एस० पी० दयानिधि, स्थानापन्न प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, सी० आई० (एस० बी०), अवाडी को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी,—1 अप्रैल, 1977।

श्री पी० के० राव, स्थानापन्न डी० सी० एस० ओ० इलेक्ट्रॉनिक्स, का निरीक्षणालय, मद्रास को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी,—1 अप्रैल, 1977 ।

श्री आर० एस० चिमनी, स्थानापन्न प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, सी० आई० (एस०), सिकन्द्राबाद सेवा निवृत्त को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, 1 अप्रैल, 1978 ।

श्री के० वी० राम मूर्ती, स्थानापन्न डी० सी० एस० ओ० इलेक्ट्रॉनिक्स, का निरीक्षणालय, कलकत्ता को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी,—1 अप्रैल, 1978 ।

श्री एस० के० मनी, स्थानापन्न प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स का निरीक्षणालय, बंगलौर को स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी—1 अप्रैल, 1978 ।

एम० गोपाल, अवर सचिव

राष्ट्रीय कैडेट कोर

मं० 1815, दिनांक 27 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित को कमीशन प्रदान करते हैं ।

कनिष्ठ प्रभाग (थल सेना स्कंध)

तृतीय अफसर के रूप में

आंध्र प्रदेश

पैदी मुक्कला आनन्द कुमार (एन० सी० सी० जे०/41814), 8 फरवरी, 1981 ।

के० वी० गोविन्द चारी (एन० सी० सी० जे०/41815) 14 सितम्बर, 1981 ।

मिर्जा नसरुल्लाह बेग (एन० सी० सी० जे०/41816), तथा कुर्माणा रंगा राव (एन० सी० सी० जे०/41817), 15 सितम्बर, 1981

बित्रा प्रसाद राव (एन० सी० सी० जे०/41818), 16 सित०, 1981

बिहार

जीवन कृष्णा रे (एन० सी० सी० जे०/1846), 8 फरवरी, 1981

सुरेन्द्र कुमार (एन० सी० सी० जे०/1847), 16 सित० 1981

गुजरात

रमणीक लाल केशवलाल भट्ट, (एन० सी० सी० जे०/35669), प्रान जीवन भीमनलाल शाह (एन० सी० सी० जे०/35670), कान्तिलाल हीरा लाल भगत (एन० सी० सी० जे०/35671), तथा बाबू भाई रणछोड़ लाल पटेल, (एन० सी० सी० जे०/35672), 8 फरवरी, 1981 ।

मनुभाई छोटाभाई पटेल (एन० सी० सी० जे०/35673), 9 फरवरी, 1981 ।

पिरुभी रण छोजी तलबिया (एन० सी० सी० जे०/35674), 14 सित०, 1981

प्रवीण सिंह प्रभात सिंह अनितिया (एन० सी० सी० जे०/35675), 18 सितम्बर, 1981

बड़वाला विठ्ठलदास जैकिशन वास (एन० सी० सी० जे०/35676), 18 सित०, 1981 ।

हरियाणा

मोहन सिंह (एन० सी० सी० जे०/8638), 14 सितम्बर, 81

सुरेन्द्र सिंह त्यागी (एन० सी० सी० जे०/8689), 14 सितम्बर, 1981 ।

जम्मू तथा कश्मीर

शिवकुमार गर्ग (एन० सी० सी० जे०/26414), 16 सितम्बर 1981

नरसिंह दास शर्मा (एन० सी० सी० जे०/26415), तथा मोहम्मद शफी जर्गर (एन० सी० सी० जे०/26416), 17 सितम्बर, 1981 ।

फहक अहमद जान (एन० सी० सी० जे०/26417), 18 सितम्बर 81

हिमाचल प्रदेश

व्यास भारद्वाज, (एन० सी० सी० जे०/23929), प्रेमचंद भारद्वाज (एन० सी० सी० जे०/23930), रामनाथ चन्देल (एन० सी० सी० जे०/23931), तथा तारा चन्द शर्मा (एन० सी० सी० जे०/23932), 14 सितम्बर, 1981 ।

रवीन्द्रन नीलकांतन (एन० सी० सी० जे०/65073), 27 जुलाई, 1980 ।

तलोर नारायण स्वामी सत्यन (एन० सी० सी० जे०/65075), 3 नवम्बर, 1980

चिक्कानल्लूर कल्लप्पा बासबराजप्पा, (एन० सी० सी० जे०/65076), 1 फरवरी, 1981

वेवेन्द्र नायक (एन० सी० सी० जे०/65077), 10 फरवरी, 1981 ।

मदन मोहन शेषाचार्य पुजार (एन० सी० सी० जे०/65082), 16 सितम्बर, 1981

राघप्पा कुशनप्पा बंटल (एन० सी० सी० जे०/65083), 16 सितम्बर, 1981 ।

सी० जे० पुट्टा स्वामी (एन० सी० सी० जे०/65084), 17 सितम्बर, 1981 ।

मध्य प्रदेश

मणिराम गुप्ता (एन० सी० सी० जे०/6254), तथा सतीश कुमार श्रीवास्तव (एन० सी० सी० जे०/6255), 2 नवम्बर, 1980 ।

राम लाल वर्मा (एन० सी० सी० जे०/6256), 10 फरवरी, 1981 ।

बलराम तामरकर (एन० सी० सी० जे०/6257),
विजय कुमार पाण्डेय, एन० सी० सी० जे०/6258), सुरेन्द्र
प्रसाद तिवारी, (एन० सी० सी० जे०/6259), कृष्ण
कुमार भाटिया (एन० सी० सी० जे०/6260), महेन्द्र
प्रतापसिंह, (एन० सी० सी० जे०/6261), गोविन्द
प्रसाद शर्मा, (एन० सी० सी० जे०/6262), तथा बन्नी
नारायण श्रीवास्तव (एन० सी० सी० जे०/6264), 13
फरवरी, 1981 ।

महाराष्ट्र

त्रिम्बक श्रीमन्तराव शिन्दे (एन० सी० सी० जे०/82018)
16 सित०, 75

कृष्ण मुरारी गुप्ता (एन० सी० सी० जे०/82019),
30 दिसम्बर, 1975

भरत सिंह उखा ठोके (एन० सी० सी० जे०/82020),
कांकरेज सुभाष गुलाब्या (एन० सी० सी० जे०/82020),
शिन्दे सदाशिव कोंडाजी (एन० सी० सी० जे० /82022)
तथा सैयद खुदबकेण जमादार भाई (एन० सी० सी० जे०/
82023), 2 नवम्बर, 1980 ।

उधव कृष्ण राव गोडगे (एन० सी० सी० जे०/82025),
आचार्य विश्वनाथ भीमसेन राव (एन० सी० सी० जे०/82024),
मधुकर गंगाधर क्षीर सागर (एन० सी० सी० जे०/82026),
तथा मुकेश कुमार गोयल (एन० सी० सी० जे०/82027),
8 फरवरी, 1981

मणिक राव अमोनजी बागडे (एन० सी० सी० जे०/
82032), रत्नाकर संभाजी महादेव राव (एन० सी० सी०
जे० /82033), तथा मोरेश्वर लक्ष्मण राव तरहने (एन० सी०
सी० जे०/82034), 14 सितम्बर, 1981 ।

असम

अजिजुर रहमान तालुकदार (एन० सी० सी० जे०/643),
1 अप्रैल, 1979 ।

गोविन्द चन्द्र मैकिया (एन० सी० सी० जे०/644), 19
अक्टूबर, 1979

विमन बिहारी पाल (एन० सी० सी० जे०/645),
8 फरवरी, 1981 ।

शैलेन्द्र कुमार सहारिया (एन० सी० सी० जे०/646),
11 फरवरी 1981 ।

पदमेश्वर दत्ता (एन० सी० सी० जे०/647), 16
फरवरी, 1981

धरणी कान्त बर्मन (एन० सी० सी० जे०/648), 1 मई,
1981 ।

पंजाब

सुभाष चन्द्र सेतिया (एन० सी० सी० जे०/8679),
17 अक्टूबर, 1979 ।

जसपाल शूर, (एन० सी० सी० जे०/8686), लेख राज शर्मा
(एन० सी० सी० जे०/8687), विजय कुमार विनायक
(एन० सी० सी० जे०/8690) रेशम सिंह (एन० सी० सी० जे०
/8691), हरदयाल सिंह धनोता (एन० सी० सी० जे० /
(8692), कैलाश चन्द्र (एन० सी० सी० जे०/8693)
राम चन्द (एन० सी० सी० जे०/8694), 14 सितम्बर,
1981 ।

राजस्थान

ब्राह्म लाल माली (एन० सी० सी० जे०/31646),
16 सितम्बर, 1981 ।

बीरू लाल माली (एन० सी० सी० जे०/31647), 17
सितम्बर, 1981

दुर्गावत भोरा, (एन० सी० सी० जे०/31648), 18
सितम्बर, 1981

तुलसी दास तन्वी (एन० सी० सी० जे०/31649), श्याम
सुन्दर बोरा (एन० सी० सी० जे०/31650), तथा खुशालाराम
(एन० सी० सी० जे०/31651), 19 सितम्बर, 1981 ।

तमिलनाडु

रंगनाथन रंगास्वामी (एन० सी० सी० जे०/52540),
मरुथयप्पा तिरुमलै साभि (एन० सी० सी० जे०/52541) तथा
सुसयी जोसेफ जेवियर (एन० सी० सी० जे०/52542), 15
सितम्बर, 1981 ।

कृष्णा मुप्पनर रामकृष्णन (एन० सी० सी० जे०/52543),
16 सितम्बर, 1981 ।

अरुमुगम पिल्लै शिवतनु (एन० सी० सी० जे०/52544),
17 सितम्बर, 1981 ।

रैक्सटन डी' क्रूज (एन० सी० सी० जे०/52545), 1 नवम्बर,
1981 ।

उत्तर प्रदेश

त्रिभुवन नाथ सिन्हा (एन० सी० सी० जे०/13731), 16
नवम्बर, 1980 ।

गोपाल कृष्ण तिवारी (एन० सी० सी० जे०/13732),
1 सितम्बर, 1978 ।

चन्द्रिका प्रसाद मिश्रा (एन० सी० सी० जे०/13733), 29
जुलाई, 1979 ।

लखीराम सेमवाल (एन० सी० सी० जे०/13734), 1
अगस्त, 1979 ।

बिशन सिंह राणा (एन० सी० सी० जे०/13735), 28
अगस्त, 1979 ।

जगदीश प्रसाद शर्मा (एन० सी० सी० जे०/13738),
27 जुलाई, 1980 ।

कैलाश चन्द्र शर्मा (एन० सी० सी० जे०/13739), राम
अवतार तोमर (एन० सी० सी० जे०/13740), प्रेमकांत दीक्षित

(एन० सी० सी० जे०/13741), सुरेशचन्द्र मिश्रा (एन० सी० सी० जे०/13742), 27 जुलाई, 1980।

राम खेलावन बर्मा (एन० सी० सी० जे०/13743) तथा योगेन्द्र गुप्ता (एन० सी० सी० जे०/13744), 28 जुलाई, 1980।

पवन सिंह धामी (एन० सी० सी० जे०/13745), 30 जुलाई, 1980।

अखिलेश कुमार सिंह (एन० सी० सी० जे०/13746), 28 जुलाई, 1980।

विजेन्द्र सिंह मेहरा (एन० सी० सी० जे०/13747), 2 नवम्बर, 1980।

ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव (एन० सी० सी० जे०/13748), 1 मई, 1981।

राजेन्द्र सिंह (एन० सी० सी० जे०/13749), 8 जुलाई, 1981।

मोहम्मद तहुर (एन० सी० सी० जे०/13750), 8 फरवरी, 1981।

विष्णु कुमार श्रीवास्तव (एन० सी० सी० जे०/13751), 8 फरवरी, 1981।

शिव प्रसाद उपाध्याय (एन० सी० सी० जे०/13752), 9 फरवरी, 1981।

जगत सिंह असवाल (एन० सी० सी० जे०/13753), 10 फरवरी, 1981।

जगमेर सिंह पवार (एन० सी० सी० जे०/13754), 13 फरवरी, 1981।

पश्चिम बंगाल

रमेन्द्र नाथ मंडल (एन० सी० सी० जे०/15580), 2 नवम्बर, 1980।

अमलेन्दु मिश्रा (एन० सी० सी० जे०/15581), 16 फरवरी, 1981।

सुकुमार मंडल (एन० सी० सी० जे०/15582), 4 अप्रैल, 1981।

अमिस कुमार चटर्जी (एन० सी० सी० जे०/15584), 14 सितम्बर, 1981।

निर्मल कुमार डारी (एन० सी० सी० जे०/15585), 18 सितम्बर, 1981।

उड़ीसा

जदधर रौत (एन० सी० सी० जे०/61579), 1 सितम्बर, 1980।

कनिष्ठ प्रभाग (नौ सेना स्कंध)

आन्ध्र प्रदेश

बोदिशेट्टी धर्मराजु (एन० सी० सी० जे० एन०/41819) तथा खम्भाम्पती वेंकट रमण (एन० सी० सी० जे० एन०/41821), 19 मई, 1981।

टेकुहल्ला वेंकट राजा राव (एन० सी० सी० जे० एन०/41820), 16 मई, 1981।

चण्डीगढ़

नरेन्द्र सिंह (एन० सी० सी० जे० एन०/8683), 17 मई, 1981।

हरियाणा

नरेन्द्र सिंह नेगी (एन० सी० सी० जे० एन०/8684), तथा कृष्ण वशिष्ठ (एन० सी० सी० जे० एन०/8685), 17 मई, 1981।

कर्नाटक

पेरैक्की नारायण मूल्या (एन० सी० सी० जे० एन०/65072), 29 जून, 1980।

महाराष्ट्र

धोन्डीबा पांडुरंग काम्बले (एन० सी० सी० जे० एन०/82028), 17 मई, 1981।

राजस्थान

विजय कुमार भटनागर (एन० सी० सी० जे० एन०/31644), 21 मई, 1981।

लक्ष्मीकांत कंदपाल (एन० सी० सी० जे० एन०/31645), 20 मई, 1981।

तमिलनाडु

मुथी स्वामी रघुनाथन (एन० सी० सी० जे० एन०/52537), 17 मई, 1981।

ज्ञानप्रकाशम पुष्पराम (एन० सी० सी० जे० एन०/52538), 19 मई, 1981।

मारुती पेरियां स्वामी (एन० सी० सी० जे० एन०/52539), 1 जून, 1981।

उत्तर प्रदेश

अरुण कुमार माथुर (एन० सी० सी० जे० एन०/13736), 28 जुलाई, 1978।

अवध नारायण दीक्षित (एन० सी० सी० जे० एन०/13737), 9 जुलाई, 1979।

पश्चिम बंगाल

बीर भानु गिरी (एन० सी० सी० जे० एन०/15583), 6 जुलाई, 1981।

उड़ीसा

तिलोत्पल पथी (एन० सी० सी० जे० एन०/61577) तथा लक्ष्मी नारायण साहू (एन० सी० सी० जे० एन०/61578), 20 जुलाई, 1978।

कनिष्ठ प्रभाग (वायु सेना स्कंध)

आंध्र प्रदेश

मथी सुरेन्द्र बेनार पाल (एन० सी० सी० जे० एन०/41822), 6 अक्तूबर, 1981।

बिहार

अजेश नारायण झा (एन० सी० सी० जे० ए०/1848),
4 मार्च, 1981 ।

विभूति भूषण (एन० सी० सी० जे० ए०/1849), मोहम्मद
शाफी हुसन (एन० सी० सी० जे० ए०/1850), तथा कृष्ण नंद
पाण्डे (एन० सी० सी० जे० ए०/1851), 9 अक्तूबर, 1981 ।

गुजरात

गोविन्द सिंह मान सिंह भाट्टी (एन० सी० सी० जे० ए०/
35667), 13 अक्तूबर, 1981 ।

रजनीकांत पी० पटेल (एन० सी० सी० जे० ए०/35668),
1 मार्च, 1981 ।

हरियाणा

अशोक पंजित (एन० सी० सी० जे० ए०/8681), 1 मार्च,
1981 ।

रवि दत्त भारद्वाज (एन० सी० सी० जे० ए०/8696),
7 अक्तूबर, 1981 ।

पंजाब

गुरचरण सिंह (एन० सी० सी० जे० ए०/8680), 1 मार्च,
1981 ।

सतिन्द्र सिंह खेरा (एन० सी० सी० जे० ए०/8682),
1 मार्च, 1981 ।

राम सरण बियाला (एन० सी० सी० जे० ए०/8697)
तथा रमेश चन्द (एन० सी० सी० जे० ए०/8695), 7 अक्तूबर,
1981 ।

कर्नाटक

बी० के० नरसिम्हा मूर्ति (एन० सी० सी० जे० ए०/65074),
28 सितम्बर, 1980 ।

नार्गलिंगम मुन्दरम (एन० सी० सी० जे० ए०/65078)
पी० विश्वनाथ (एन० सी० सी० जे० ए०/65079) तथा कृष्णा
नागराज (एन० सी० सी० जे० ए०/65080), 1 मार्च, 1981 ।

के० पी० मलेश्वर चारी (एन० सी० सी० जे० ए०/65081),
2 मार्च, 1981 ।

मध्य प्रदेश

सुधीर कुमार अस्थाना (एन० सी० सी० जे० ए०/6252),
7 अक्तूबर, 1981 ।

राजेन्द्र कुमार शर्मा (एन० सी० सी० जे० ए०/6253),
13 अक्तूबर, 1981 ।

महाराष्ट्र

जयप्रकाश वजन्तराव जकांब (एन० सी० सी० जे० ए०/
82029) तथा प्रदीप एन० धोवाल (एन० सी० सी० जे० ए०/
82030), 1 मार्च, 1981 ।

अच्युत विजयानन्द (एन० सी० सी० जे० ए०/82031),
28 सितम्बर, 1980 ।

राजस्थान

भागचन्द खोरवाल (एन० सी० सी० जे० ए०/31652),
13 अक्तूबर, 1981 ।

तमिलनाडु

अनन्यनारायणन शंकरनारायणन (एन० सी० सी० जे० ए०/
52536), 28 सितम्बर, 1980 ।

बी० के० मूर्ति, कार्मिक निदेशक

बालिका प्रभाग (वरिष्ठ स्कन्ध)

द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में

तमिलनाडु

कुमारी थिलामम पिल्लै (एन० सी० सी०/जी० डी०/5465),
1 जून, 1977 ।

श्रीमती वसुन्धरा देवी परमेश्वरन नायर श्रद्धाम्मा (एन०
सी० सी०/जी० डी०/5480), 17 जुलाई, 1978 ।

हरियाणा

श्रीमती त्रिपति शर्मा (एन० सी० सी०/जी० डी०/7207),
7 अप्रैल, 1980 ।

उत्तर प्रदेश

कुमारी मृदुला अग्रवाल (एन० सी० सी०/जी० डी०/6775),
14 सितम्बर, 1980 ।

कुमारी सुचेता मुखर्जी (एन० सी० सी०/जी० डी०/6776),
19 नवम्बर, 1979 ।

गुजरात

कुमारी मालिनी रणिकलाल पोटा (एन० सी० सी०/जी०
डी०/8797), 11 नवम्बर, 1980 ।

महाराष्ट्र

कुमारी शाह रूपा शांतिलाल (एन० सी० सी०/जी० डी०/
5154), 24 सितम्बर, 1980 ।

श्रीमती सुआस्नि चन्द्रकान्त कोहक (एन० सी० सी०/जी०
डी०/5155), 23 सितम्बर, 1980 ।

मध्य प्रदेश

कुमारी ममता रानी शर्मा (एन० सी० सी०/जी० डी०/
5771), 3 जुलाई, 1980 ।

महाराष्ट्र

कुमारी यीशमा बाबूलाल पिल्लै (एन० सी० सी०/जी० डी०/
5152), 30 जुलाई, 1978 ।

आंध्र प्रदेश

कुमारी पुलिन मरी म्यूरु (एन० सी० सी०/जी० डी०/
8084), 2 जुलाई, 1980 ।

श्रीमती मोमपीलिया सीरागिरी (एन० सी० सी०/जी० डी०/
8085), 7 जुलाई, 1980 ।

कुमारी मम्मम सरहा सिरिण कुमारी (एन० सी० सी०/जी० डी०/8086), 5 जुलाई, 1980 ।

कुमारी मन्था शारी देवी (एन० सी० सी०/जी० डी०/8087), 4 जुलाई, 1980 ।

गोवा

कुमारी मारिया जोस कोरिआ डी मैरिलस (एन० सी० सी०/जी० डी०/7548), 3 जुलाई, 1980 ।

केरला

श्रीमती गौरी कुट्टी अम्मा रीमा बाई अम्मा (एन० सी० सी०/जी० डी०/7864), 12 जुलाई, 1980 ।

महाराष्ट्र

कुमारी मधु वास (एन० सी० सी०/जी० डी०/5153), 2 जुलाई, 1980 ।

तमिलनाडु

कुमारी चान्दीनि कोलाम्पराप्पिल गोविन्द पिलाई (एन० सी० सी०/जी० डी०/5485), 4 जुलाई, 1980 ।

उत्तर प्रदेश

कुमारी बलबीर कौर कीर (एन० सी० सी०/जी० डी०/6793), 3 जुलाई, 1980 ।

श्रीमती अर्चना मोथे (एन० सी० सी०/जी० डी०/6794), 2 जुलाई, 1980 ।

एन० ई० आर०

श्रीमती इट असानगिआ जमीर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7347), 8 जुलाई, 1980 ।

पश्चिम बंगाल

कुमारी सविता सहगल (एन० सी० सी०/जी० डी०/6056), 7 जुलाई, 1980 ।

आंध्र प्रदेश

कुमारी धरातुला विजया लक्ष्मी (एन० सी० सी०/जी० डी०/8090), 26 दिसम्बर, 1980 ।

उत्तर प्रदेश

कुमारी सुनीता बाला गुप्ता (एन० सी० सी०/जी० डी०/6778), 24 दिसम्बर, 1980 ।

कुमारी चन्द्रा प्रभा कुल्य (एन० सी० सी०/जी० डी०/6779), 24 दिसम्बर, 1980 ।

श्रीमती संतोष रानी (एन० सी० सी०/जी० डी०/6780), 24 दिसम्बर, 1980 ।

एन० ई० आर०

कुमारी संध्या दाम (एन० सी० सी०/जी० डी०/7348), 26 दिसम्बर, 1980 ।

आंध्र प्रदेश

श्रीमती दुर्गम्पवी नवोदया (एन० सी० सी०/जी० डी०/8088), 27 दिसम्बर, 1980 ।

कुमारी कम्मयातूर (एन० सी० सी०/जी० डी०/8089), 27 दिसम्बर, 1980 ।

तमिलनाडु

श्रीमती मनोरमा विनिथा (एन० सी० सी०/जी० डी०/5486), 27 दिसम्बर, 1980 ।

कुमारी सी ड्यूलाव्यासान्था (एन० सी० सी०/जी० डी०/5487), 26 दिसम्बर, 1980 ।

कर्नाटक

कुमारी स्तान्था कुमारी (एन० सी० सी०/जी० डी०/7549), 24 दिसम्बर, 1980 ।

कुमारी रजनी के० वीक्षित (एन० सी० सी०/जी० डी०/7550), 30 दिसम्बर, 1980 ।

आंध्र प्रदेश

श्रीमती माला जैमुला इन्द्रा (एन० सी० सी०/जी० डी०/8091), 3 जुलाई, 1981 ।

बिहार

कुमारी अनिता मुखर्जी (एन० सी० सी०/जी० डी०/6318), 6 जुलाई, 1981 ।

मध्य प्रदेश

कुमारी आरती वैश्य (एन० सी० सी०/जी० डी०/5774), 1 जुलाई, 1981 ।

महाराष्ट्र

श्रीमती बददि शामलनन्द किशोरी (एन० सी० सी०/जी० डी०/5156), 1 जुलाई, 1981 ।

कुमारी वर्षिका वानखीड़ी (एन० सी० सी०/जी० डी०/5157), 1 जुलाई, 1981 ।

पंजाब

कुमारी तेजन्दर कौर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7208), 1 जुलाई, 1981 ।

कुमारी नव किरण कौर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7209), 1 जुलाई, 1981 ।

उत्तर प्रदेश

कुमारी कुमकुम शर्मा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6781), 1 जुलाई, 1981 ।

महाराष्ट्र

डाक्टर भारती बापूराय यादव (एन० सी० सी०/जी० डी०/5158), 11 जुलाई, 1981 ।

तमिलनाडु

सैलवि सेधूरमण गोथा (एन० सी० सी०/जी० डी०/5491), 24 दिसम्बर, 1981 ।

कुमारी निशामणी शीला डेनिपल (एन० सी० सी०/जी० डी०/5492), 18 मार्च, 1982 ।

कुमारी शंकरानारायण परुथम (एन० सी० सी०/जी० डी०/5493), 18 मार्च, 1982 ।

रामनाथन उमायल (एन० सी० सी०/जी० डी०/5494), 11 मार्च, 1982 ।

कर्नाटक

श्रीमती रेगिना सुब्रामणी (एन० सी० सी०/जी० डी०/7551), 24 दिसम्बर, 1981 ।

मध्य प्रदेश

कुमारी संतोष जैन (एन० सी० सी०/जी० डी०/5775), 22 दिसम्बर, 1981 ।

श्रीमती कल्पना भौरे (एन० सी० सी०/जी० डी०/5776), 20 दिसम्बर, 1981 ।

हरियाणा

कुमारी रमा शर्मा (एन० सी० सी०/जी० डी०/7213), 20 दिसम्बर, 1981 ।

तमिलनाडु

कुमारी गोपाला स्वामी बरधा (एन० सी० सी०/जी० डी०/5489), 23 दिसम्बर, 1981 ।

कुमारी गीता लक्ष्मीनरदीमन (एन० सी० सी०/जी० डी०/5490), 23 दिसम्बर, 1981 ।

उत्तर प्रदेश

कुमारी रीटा शर्मा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6782), 20 दिसम्बर, 1981 ।

श्रीमती उषा शिरोहा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6783), 20 दिसम्बर, 1981 ।

श्रीमती सुधा सिंह (एन० सी० सी०/जी० डी०/6784), 21 दिसम्बर, 1981 ।

सं० 1816, दिनांक 26 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति निम्न महिला अफसरों की पदोन्नति करते हैं :—

बालिका प्रभाग (वरिष्ठ स्कन्ध)

कैप्टन से मेजर के रूप में

गुजरात

कुमारी देवबाला इसुरिआल जानी (एन० सी० सी०/जी० डी०/8717), 30 जून, 1978 ।

कुमारी भगवती व्यास (एन० सी० सी०/जी० डी०/8724), 28 जून, 1979 ।

हरियाणा

कुमारी गुरचरन कौर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7035), 28 जून, 1979 ।

कुमारी जनक ग्रोवर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7029), 15 अगस्त, 1979 ।

पंजाब

श्रीमती जानकी शर्मा (एन० सी० सी०/जी० डी०/7032), 28 जून, 1979 ।

तमिलनाडु

श्रीमती हसीना बेगम (एन० सी० सी०/जी० डी०/5425), 6 मार्च, 1979 ।

कुमारी त्योडोराम्मी एनिलेठ शेली (एन० सी० सी०/जी० डी०/5419), 3 नवम्बर, 1978 ।

उत्तर प्रदेश

कुमारी राज कुमारी गुप्ता (एन० सी० सी०/जी० डी०/6548), 30 जून, 1978 ।

कुमारी सोमीप्यारी आनंद (एन० सी० सी०/जी० डी०/6567), 28 जून, 1979 ।

पश्चिम बंगाल

कुमारी शुक्ला घोष (एन० सी० सी०/जी० डी०/6018), 20 फरवरी, 1979 ।

श्रीमती संध्या दत्ता (एन० सी० सी०/जी० डी०/6023), 28 जून, 1979 ।

द्वितीय लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

पंजाब

कुमारी सुरेन्द्र कौर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7167), 11 मार्च, 1979 ।

लेफ्टिनेंट से कैप्टन

दिल्ली

श्रीमती स्नेह प्रभा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6819), 28 जनवरी, 1979 ।

केरला

श्रीमती उमा नायर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7825), 14 अगस्त, 1979 ।

उत्तर प्रदेश

श्रीमती कंचन चन्दबाणी (कुमारी कंचन मैहरोत्रा), (एन० सी० सी०/जी० डी०/6665), 24 सितम्बर, 1978 ।

द्वितीय लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

ग्राम्भ प्रदेश

कुमारी सुन्दारा राजेश्वरी कवालीपति (एन० सी० सी०/जी० डी०/8074), 6 अप्रैल, 1979 ।

श्रीमती सयद जिनाब बीबी (एन० बी० सी०/जी० डी०/8071), 10 मई, 1978 ।

महाराष्ट्र

श्रीमती उर्मिला डी० पटेल (एन० सी० सी०/जी० डी०/5130), 1 अगस्त, 1979 ।

श्रीमती संजीवनी मथावलि (एन० सी० सी०/जी० डी०/5121), 30 नवम्बर, 1978 ।

कुमारी निरलिपिका मणीकान्त पटेल (एन० सी० सी०/जी० डी०/5128), 1 अगस्त, 1979 ।

श्रीमती रक्षा अनिल देसाई (एन० सी० सी०/जी० डी०/5131), 1 अगस्त, 1979।

पंजाब

श्रीमती संतवन कौर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7132), 1 जुलाई, 1978।

तमिलनाडु

कुमारी टी० एस० भाभा (एन० सी० सी०/जी० डी०/5463), 3 अगस्त, 1979।

उत्तर प्रदेश

कुमारी माया बहल (एन० सी० सी०/जी० डी०/6714), 1 जुलाई, 1976।

श्रीमती रानी खन्ना (एन० सी० सी०/जी० डी०/6731), 30 नवम्बर, 1978।

लेफ्टिनेंट से कैप्टन

चण्डीगढ़

श्रीमती बलविन्द्र सहोता (कुमारी बलविन्द्र कौर गिल), (एन० सी० सी०/जी० डी०/7111), 10 मार्च, 1979।

उत्तर प्रदेश

श्रीमती विद्यावती गुप्ता (कुमारी विद्यावती गुप्ता), (एन० सी० सी०/जी० डी०/6713), 4 जून, 1979।

कुमारी इन्द्रजीत कौर (एन० सी० सी०/जी० डी०/6682), 14 जुलाई, 1979।

श्रीमती अन्सुया सिंह (कुमारी अन्सुया जादोन) (एन० सी० सी०/जी० डी०/6695), 1 जुलाई, 1979।

कुमारी इन्द्रा निगम (एन० सी० सी०/जी० डी०/6688), 14 जुलाई, 1979।

श्रीमती विमला कुमारी शुक्ला (एन० सी० सी०/जी० डी०/6694), 25 अगस्त, 1979।

पश्चिम बंगाल

कुमारी गीता सरकार (एन० सी० सी०/जी० डी०/6039), 28 मार्च, 1978।

श्रीमती तापति सेन गुप्ता (कुमारी तापति दास गुप्ता) (एन० सी० सी०/जी० डी०/6042), 27 मार्च, 1978।

द्वितीय लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

कर्नाटक

कुमारी मुनीति मुल्लगदी (एन० सी० सी०/जी० डी०/7532), 15 अगस्त, 1979।

केरला

श्रीमती चन्द्रिका देवी जी (एन० सी० सी०/जी० डी०/7860), 17 अगस्त, 1979।

लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रूप में

कर्नाटक

कुमारी गीता वियास तन्त्री (एन० सी० सी०/जी० डी०/7526), 15 अगस्त, 1979।

2-214 GI/82

तमिलनाडु

कुमारी एम० ए० इन्द्रार्णा (एन० सी० सी०/जी० डी०/5444), 30 जून, 1980।

उत्तर प्रदेश

कुमारी सुरचरण जीत कौर (एन० सी० सी०/जी० डी०/6663), 5 मार्च, 1978।

श्रीमती नैन नागा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6659), 3 दिसम्बर, 1978।

द्वितीय लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

दिल्ली

श्रीमती एस० पाठक (एन० सी० सी०/जी० डी०/6832), 7 दिसम्बर, 1980।

उत्तर प्रदेश

श्रीमती मंजु कुमारी शर्मा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6745), 3 जुलाई, 1980।

महाराष्ट्र

श्रीमती कंचन कुंती नाथ कैप्पी (एन० सी० सी०/जी० डी०/5143), 3 दिसम्बर, 1981।

पंजाब

श्रीमती शविन्द्र पाल कौर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7187), 9 अगस्त, 1980।

मध्य प्रदेश

श्रीमती आशा तिवारी (एन० सी० सी०/जी० डी०/5756), 30 जून, 1977।

तमिलनाडु

एम० सी० जमुना (एन० सी० सी०/जी० डी०/5459), 9 अगस्त, 1980।

हरियाणा

कुमारी अमरजीत डीगरा (एन० सी० सी०/जी० डी०/7192), 10 जनवरी, 1981।

लेफ्टिनेंट से कैप्टन

उत्तर प्रदेश

श्रीमती बिन्ती जाह्नवा रिजवी (एन० सी० सी०/जी० डी०/6712), 30 जून, 1980।

महाराष्ट्र

कुमारी देवी चन्दुमल पुनवानी (एन० सी० सी०/जी० डी०/5095), 12 फरवरी, 1981।

कैप्टन से मेजर

उत्तर प्रदेश

कुमारी मुनीता आम्था (एन० सी० सी०/जी० डी०/6565), 28 जून, 1980।

श्रीमती टी० गोडीपाल (एन० सी० सी०/जी० डी०/6584), 11 जुलाई, 1980।

पञ्चाराष्ट्र

श्रीमती ज्योति दीलिप बोहरा (एन० सी० सी०/जी० डी०/5028), 9 अगस्त, 1980।

चंडीगढ़

श्रीमती शकुन्तला खुल्लर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7033), 10 नवम्बर, 1979।

द्वितीय लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट के रूप में
उत्तर प्रदेश

श्रीमती सीता पॉल (एन० सी० सी०/जी० डी०/6748),
4 जनवरी, 1981।

लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रूप में
हिमाचल प्रदेश

कुमारी उषा बन्दे (एन० सी० सी०/जी० डी०/7126),
5 अगस्त, 1981।

उत्तर प्रदेश

श्रीमती कल्पना न्याल (एन० सी० सी०/जी० डी०/6683),
5 अगस्त, 1981।

कैप्टन से मेजर के रूप में

श्रीमती नारा त्यागराजन (एन० सी० सी०/जी० डी०/8734), 5 अगस्त, 1981।

द्वितीय लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट के रूप में
उत्तर प्रदेश

कुमारी शिरोमणी श्रीवास्तवा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6760), 4 जनवरी, 1982।

कुमारी प्रिमरोस ग्रेसिपम बेरिस्कॉट (एन० सी० सी०/जी० डी०/6743), 5 अगस्त, 1981।

केरला

श्रीमती के० विजयम्मा (एन० सी० सी०/जी० - डी०/7863), 1 जुलाई, 1982।

लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रूप में
तमिलनाडु

श्रीमती अनुराधा (एन० सी० सी०/जी० डी०/5455),
14 अक्तूबर, 1981।

कैप्टन से मेजर के रूप में

गुजरात

कुमारी एन० के० त्रिवेदी (एन० सी० सी०/जी० डी०/8744), 16 जुलाई, 1982।

उड़ीसा

कुमुदिनि बरगई (एन० सी० सी०/जी० डी०/8304),
9 अगस्त, 1980।

बी० के० मूर्ति, कार्मिक निदेशक

सं० 1317, दिनांक 2 अगस्त, 1982—निम्नलिखित को राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल की अवैतनिक रैंक प्रदान किया जाता है तथा उनके नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर में कुलपति पद पर रहने की अवधि तक उन्हें अवैतनिक कर्नल कमांडेंट एन० सी० सी० नियुक्त किया जाता है :—

श्री गुलाब राव बी कदम,

कुलपति

नागपुर विश्वविद्यालय

नागपुर

16 दिसम्बर, 1981

ए० एस० बेदी, उप मन्त्रि
(प्रशि० एवं समारोह)

महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं० 1818, दिनांक 3 अगस्त, 1982—अधिवर्ष की आयु प्राप्त होने पर श्री जी० एन० सोधी, स्थायी सहायक/स्थानापन्न ए० सी० एस० ओ०, 31 जुलाई 1982 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त और 1 अगस्त 1982 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थान्तरित।

मुरक्षा कार्यालय

सं० 1819, दिनांक 3 अगस्त, 1982—अधिवर्ष की आयु प्राप्त करने पर श्री ए० एन० मिश्र, स्थायी ए० सी० एस० ओ०/स्थानापन्न सी० एस० ओ०, 31 जुलाई 1982 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त और 1 अगस्त 1982 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थान्तरित।

दुली चन्द्र, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

रेडार और संचार परियोजना कार्यालय

सं० 1820, दिनांक 3 अगस्त, 1982—राष्ट्रपति रक्षा भूमि एवं छावनी सेवा के स्थायी एस० डी० ओ० श्री डी० पी० ब्राह्मजा को, 24 मई 1982 (पूर्वाह्न) से 6 महीने की अवधि या भर्ती नियमों के अंतिम रूप से तय हो जाने के समय में से, जो भी पहले हो, उस तक उप परियोजना अधिकारी (भूमि) नियुक्त करते हैं।

बी० पी० जोशी, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

निरीक्षण महानिदेशालय

सं० 1821, दिनांक 4 अगस्त, 1982—मिथिलियन स्टाफ अधिकारी श्री ओ० पी० दूवे 20-7-82 को 58 वर्ष के होने पर 31-7-82 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त और 1-8-82 से पेंशन स्थापना में स्थान्तरित।

सं० 1822, दिनांक 4 अगस्त, 1982—सिथिलियन स्टाफ अधिकारी श्री दयाराम 24-7-82 को 58 वर्ष के होने पर 31-7-1982 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त और 1-8-1982 को पेंशन स्थापना में स्थान्तरित।

सामान्य स्टाफ शाखा

(निजी स्टाफ)

सं० 1823, दिनांक 22 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति स्थानापन्न सहायक श्री शिव दयाल को, श्री मोहन लाल के सेवा निवृत्त होने पर उनके स्थान पर सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में 1 जुलाई 1982 से अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम० पी० महेश्वरी, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 1824, दिनांक 2 अगस्त, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी तिथि से मूल रूप में जूनियर एनलिस्ट (वर्ग "बी" राजपत्रित) के तौर पर नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम और पदनाम	जूनियर एनलिस्ट के पद पर पृष्ठ की तारीख
1.	श्री प्रेम चन्द गोयल, स्थायी रिकार्ड एनलिस्ट/ स्थानापन्न जूनियर एनलिस्ट	17-4-1982
2.	श्री दीपाकर राय, स्थायी रिकार्ड एनलिस्ट/ स्थानापन्न जूनियर एनलिस्ट	17-4-1982
3.	श्री गुरचरण जीन, स्थायी रिकार्ड एनलिस्ट/ स्थानापन्न जूनियर एनलिस्ट	17-4-1982

दुली चन्द्र, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (पी)

(डी० जी० ए० एफ० एम० एस०)

शुद्धि-पत्र

सं० 1825, दिनांक 30 जुलाई, 1982—13 मार्च 1982 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 555 दिनांक 17 फरवरी 1982 में शीर्षक "सेना शाखा—डी० जी० ए० एफ० एम० एस०" और उप शीर्षक "सहायक, स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में", निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"श्री मुल्क राज वधवा" के स्थान पर

"श्री मुख् राज वधवा" पढ़ा जाए

एम० पी० महेश्वरी, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 1826, दिनांक 4 अगस्त, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को 8 जून 1982 (पूर्वाह्न) से अपने निजी स्टाफ में सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

अवैतनिक सर्जन के पद पर

ले० ज० एल० डी० खुराना, पी० बी० एस० एम०, बी० एस० एम०, डी० एम० एस० (आर्मी), (एम० आर० 00426 एफ)

सर्जन रीयर एडमिरल पी० आर० के० नायर, पी० एस० एम०, डी० एम० एस० (नेवी) (एम० आर० 00489 के)।

अवैतनिक दन्त सर्जन के पद पर

मेजर जनरल पी० सी० कोचर, निवेशक दन्त सेवा (डी० आर० 10046 डब्ल्यू)

असीम चटर्जी, संयुक्त सचिव

सं० 1827, दिनांक 24 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति, यथा-संशोधित थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

(नियमित सेना)

(स्थायी कमीशन)

कैप्टन (फ्ला० लेफ्टि०) के रैंक में (परख पर)

कूटागोल्ला वीरभद्राप्पा गणेश, एम० बी० बी० एस०, (एम० आर० 04344 डब्ल्यू०) (16491), सैनिक डाक्टरी कोर, 15 मई, 1981।

कृष्ण बहादुर मिश्रा, एम० बी०, बी० एस० (एम० आर० 04349 पी०) (16499), सैनिक डाक्टरी कोर, 12 जून, 1981।

कैप्टन के रैंक में (परख पर)

सत्य प्रकाश बेंकटाचलम तुरलापति, एम० बी०, बी० एस० (एम० आर० 04345 वाई०), सैनिक डाक्टरी कोर, 15 मई, 1981।

सं० 1828, दिनांक 27 जुलाई, 1982—थलसेना अनुदेश 15/79 के अधीन राष्ट्रपति 3 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

(नियमित सेना)

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

लेफ्टिनेंट के रैंक में (परख पर)

हिमान्शु शंकर शर्मा, बी० डी० एस० (प०) (डी० एस० 11538 एफ०), 14 सितम्बर, 1981।

हरीकिशन राव थोमवरे, बी० डी० एस० (बम्बई) (डी० एस० 11539 के०), 14 सितम्बर, 1981।

राकेश कुमार शर्मा, बी० डी० एस० (पंजाब) (डी० एस० 11541 एफ०), 14 सितम्बर, 1981।

संजीव हरवंश गुप्ता, बी० डी० एस० (पंजाब) (डी० एस० 11543 एम०), 14 सितम्बर, 1981।

(मिस) रीता रोनाल्ड, बी० डी० एस० (केरल) एम० डी० एस० (बंगलौर) (डी० एस० 11547 एच०), 22 सितम्बर, 1981।

अनील सभलोक, बी० डी० एस० (इन्दौर) (डी० एस० 11548 एल), 05 अक्तूबर, 1981।

मुबोध कुमार सिंह, बी० डी० एस० (पटना) (डी० एस० 11549 एन), 05 अक्तूबर, 1981।

सतीश चन्दर राजपूर, बी० डी० एस० (पटना) (डी० एस०-11550 एच), 04-11-81।

अश्विनी कुमार गुप्ता, बी० डी० एस० (पंजाब) (डी० एस०-11551 एल), 4-11-1981।

शैलेन्द्र कुमार जैन, बी० डी० एस० (लखनऊ) (डी० एस०-11554 वाई), 04-11-1981।

(मिसेज) मंजु आहूजा, बी० डी० एस० (लखनऊ) (डी० एस० 11555 एफ), 04-11-1981।

अनिल अहूजा बी० डी० एस० (पंजाब) (डी० एस०-11556 के), 04-11-1981।

(मिस) रीता राजकिशोर बियानी, बी० डी० एस० (महाराष्ट्र) (डी० एस०-11557 एम), 07-11-1981।

(मिस) रमनी कुमार, बी० डी० एस० (मद्रास) (डी० एस० 11558 पी), 08-11-81।

नच्छतर सिंह, अवर सचिव

सैनिक अभियन्ता सेवाएं

सं० 1829, दिनांक 2 अगस्त 1982—राष्ट्रपति ने श्री नरेन्द्र कुमार सहायक प्रबन्धक अभियन्ता विद्युत/यान्त्रिक (एस० ओ० ग्रेड 3) को राजस्थान तथा गुजरात जोन जयपुर के दफ्तर में अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबन्धक अभियन्ता विद्युत/यान्त्रिक (एस० ओ० ग्रेड 2) के कार्यों के करने के लिए दिनांक 01 दिसम्बर, 1980 से 14 जनवरी, 1981 (पूर्वाह्न) तक नियुक्त किया।

एम० सी० जुनेजा, अवर सचिव

सं० 1830, दिनांक 4 अगस्त, 1982—राष्ट्रपति ने एम० ई० एस०—8464025 श्री तिरलोक चन्द मेहता, स्थाई सुपरिन्टेण्डेंट ई०/एम० ग्रेड-I की तिथि 29 मार्च, 1982 (पूर्वाह्न) से अगले आवेदन तक कार्यवाहक असिस्टेंट इंजीनियर ई०/एम० के पद पर नियुक्त करते हैं।

अधिकारी दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगा।

एम० सी० जुनेजा, अवर सचिव

सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा

सं० 1831, दिनांक 31 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर, निम्नलिखित अधिकारियों की सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (निदेशक/उप महानिदेशक) में, उनके नामों के आगे दर्शायी गई तारीखों से पुष्टि करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

श्री जे० एस० मनावलन	—	1-8-1976
श्री आर० के० चतुर्वेदी	—	1-8-1976
श्री के० आर० के० मेनन	—	1-8-1976
श्री टी० एस० सिवास्वामी	—	1-8-1976
श्री एस० एल० खुराना	—	1-8-1976
श्री के० रघुनाथन	—	30-11-1976
श्री एस० मजूमदार	—	30-11-1976
श्री एच० एस० लाम्बा	—	3-1-1977
श्री ए० फोन्सेका	—	4-4-1977
श्री हंस राज	—	1-11-1979

आर० के० चतुर्वेदी, महानिदेशक
रक्षा भूमि तथा छावनी

सं० 1832, दिनांक 2 अगस्त, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन से मेजर

कृष्ण कन्त (आई० सी०-28442) ए० एस० सी०, 21 फरवरी, 1982।

टी० आर० एन० सिन्हा (आई० सी०-28638) ए० ई० सी०, 21 फरवरी, 1982।

आर० के० शर्मा (आई० सी०-26812) के० बी० मनीकून्ज (आई० सी०-26829) बी० के० मलहोत्रा (आई० सी०-26845) बी० के० खजूरिया (आई० सी०-26866) के० एन० पी० सिन्हा (आई० सी०-26975) सी० एम० पूरी (आई० सी०-26983) और पाल सिंह (आई० सी०-26998) ई० एम० ई०—30 अप्रैल, 1982

जे० एस० धालीवाल (आई० सी०-26825) सतपाल सिंह (आई० सी०-26826) जी० एस० सूदन (आई० सी० 26872) पी० डी० शर्मा (आई० सी०-26875) कृष्ण कुमार (आई० सी०-26985)

नरन्दिर नाथ (आई० सी०-28097) के० सी० राजपूत (आई० सी०-28117) और जी० एस० चौपड़ा (आई० सी०-28170) आरटी० 30 अप्रैल, 1982

एस० एन० तिवारी (आई० सी०-26835) पी० एस० मान (आई० सी०-26848) जे० एस० दिवान (आई० सी०-26870) के० के० पाण्डे (आई० सी०-26882) एच० एस०

अहूजा (आई० सी०-26885) एस० जे० एस० साही (आई० सी०-26898) जे० बी० सिंह (आई० सी०-26903) ए० एल० डी० कौटो (आई० सी०-26970) आर० जी० दास (आई० सी०-26971) पी० के० सहिगल (आई० सी०-26994) एच० डी० पिले (आई० सी०-28007) एच० एस० विरक (आई० सी०-28014) के कोटवाल (आई० सी०-28044) जे० बी० एस० टिटोटिया (आई० सी०-28047) ए० वी० के० कूनहीमोन (आई० सी०-28056) वी० एन० द्विवेदी (आई० सी०-28058) आर० एस० कीर (आई० सी०-28072) अवतार सिंह (आई० सी०-28081) यू० सी० श्रीवास्तवा (आई० सी०-28105) के० पी० एस० मादूरिया (आई० सी०-28124) एन० जी० जे० डीकौस्ता (आई० सी०-28146) वचित्र सिंह (आई० सी०-28148) बी० बी० बहरा (आई० सी०-28172) एम० के० पाल (आई० सी०-28178) राज किशोर (आई० सी०-28190) और डी० त्यागी आर० टी०—30 अप्रैल 1982 ।

ए० एस० सरार (आई० सी०-26843) पी० पी० सिंह (आई० सी०-26869) एस० एस० पासी (आई० सी०-26939) एस० एस० बालागन (आई० सी०-26974) वी० पी० सियाल (आई० सी०-26999) रशी पाल (आई० सी०-28043) राखिन्दर कुमार (आई० सी०-28145) एन० के० दूगल (आई० सी०-28155) ए० आर० कूलकारनी (आई० सी०-28159) ए०ओ० सी०—30 अप्रैल, 1982 ।

जे० के० गूलिया (आई० सी०-26863) दनपत सिंह (आई० सी०-26813) मदनपाल सिंह (आई० सी०-26871) के० एम० रन्धावा (आई० सी०-26942) एस० एस० डिलों (आई० सी०-28028) ओ० पी० शर्मा (आई० सी०-28045) बी० आर० अधिकारी (आई० सी०-28225) और एस० पी० मलहोत्रा (आई० सी०-28241) आरमड कोर, 30 अप्रैल, 1982 ।

टी० सी० माथूर (आई० सी०-26865) हरजाप सिंह (आई० सी०-26916) और एस० एस० एन० जोशी (आई० सी०-28029) सिगनल्ज,—30 अप्रैल, 1982 ।

बी० शर्मा (आई० सी०-26912) और बी० के० बन्सल (आई० सी०-28048) सिगनल्ज—30 अप्रैल, 1982 ।

आर० के० आनन्द (आई० सी०-26923) वी० के० केशप (आई० सी०-26932) डी० के० कपूर (आई० सी०-26938), एस० एन० तिवारी (आई० सी०-28015) सी० ए० चावदे (आई० सी०-28026) एस० एल० मानकताला (आई० सी०-28036) के विशवानाथन (आई० सी०-28067) जोगेन्दर सिंह (आई० सी०-28091) एन० जी० नायिमवार (आई० सी०-28092) जे० एस० दूआ (आई० सी०-28094) एस० सी० छाबरा (आई० सी०-28115) ए० के० बालूजा (आई० सी०-28152) एच० पी० जाँहर (आई० सी०-28194) और पी० कृष्ण (आई० सी०-28223) ए० एस० सी०, 30 अप्रैल, 1982 ।

पी० एस० भटनागर (आई० सी०-28065), ए० ई० सी०, 30 अप्रैल, 1982 ।

लैफ्टिनेंट से कैप्टेन

सर्वाबन्ध सिंह (आई० सी०-30815), आरमड कोर, 21 जुलाई, 1981 ।

वी० के० सिंह (आई० सी०-30927) ए० एस० सी०-21 जुलाई, 1981 ।

आर० एम० सिंह (आई० सी०-30948), सी० जे० आनन्द (आई० सी०-30992), मिल्ट्री फार्म 21 जुलाई, 1981 ।

जे० त्रिपाठी (आई० सी०-30772), एम० पी० सिंह (आई० सी०-30837), बी० के० डेका (आई० सी०-30851), ए० के० सिंह (आई० सी०-30884), के० डी० सिंह (आई० सी०-30890), सिगनल्स, 21 जुलाई, 1981 ।

एस० हिंगोरानी (आई० सी०-30919) सिगनल्स, 21 जुलाई, 1981 । (परन्तु वेतन और भत्ते के लिए तिथि 25 जुलाई, 1981) ।

जे० एस० विरक (आई० सी०-34268), आर० के० पुत्री (आई० सी०-34289), अर्जुन सिंह (आई० सी०-34293), एल० समशन (आई० सी०-34299), डी० के० वाई अणारा (आई० सी०-34301), एस०एम० परलुकर (आई० सी०-34303), एन० के० अनूल (आई० सी०-34328), जतिन्द्र कुमार (आई० सी०-34330) सिगनल्स, 21 जुलाई, 1981 ।

ए० बी० एस० बरार (आई० सी०-30805), एस० एम० जोशी (आई० सी०-34261), के० जे० सिंह (आई० सी०-34265), पी० एन० अवस्थी (आई० सी०-34273), एच० एस० शेखो (आई० सी०-34279), एन० पी० सिंह (आई० सी०-34280), एल० एस० भूति (आई० सी०-34300), जे० एस० शहोरा (आई० सी०-34310), एन० एम० समान्त्रे (आई० सी०-34315), ई० एम० ई०—21 जुलाई, 1981 ।

के० पी० अग्रवाल (आई० सी०—30761) आर० जी० कदम (आई० सी०-30778), आर० शर्मा (आई० सी०-30779), वी० बी० गोरे (आई० सी०-30842), डी० एम० पाटिल (आई० सी०-30843), के० एस० विष्ट (आई० सी०-30889), के० एन० जयप्रकाश (आई० सी०-30900), मन्वेव सिंह (आई० सी०-30912), आर० बत्रा (आई० सी०-30913), आर० एस० वर्मा (आई० सी०-30916), के० कृष्ण खेर (आई० सी०-30928), सी० पी० सिन्हा (आई० सी०-30940), वी० के० खन्ना (आई० सी०-30741), आर्टिलरी, 21 जुलाई, 1981 ।

सी० के० कादयान (आई० सी०-30765) इन्फैन्ट्री, 21 जुलाई, 1981 मोहन दन्त्र (आई० सी०-30775) इन्फैन्ट्री, 22 जनवरी, 1982, ए० के० राय (आई० सी०-30867), ओ० एस० खरवाल (आई० सी०-30873), एल० एस० नन्वन

(आई० सी०-30874), के० नायर (आई० सी०-30893), एस० शंकर (आई० सी०-30895), अमर सिंह (आई० सी०-30902), के० पठनिया (आई० सी०-30904), आई० एस० सन्धु (आई० सी०-30921), एन० एस० राठीर (आई० सी०-30929), बी० एम० ब्रिट्ट (आई० सी०-30945) इन्फैन्ट्री, 21 जुलाई, 1981 ।

ए० टी० पटनायक (आई० सी०-30701), यू० जोशी (आई० सी०-30827), आर० के० पटनायक (आई० सी०-30880), बी० विक्रम (आई० सी०-30925), सी० डी० निकम (आई० सी०-30931), एस० के० शर्मा (आई० सी०-34260), आर० एस० पोरस (आई० सी०-34269), डी० गोपीनाथ (आई० सी०-34274), आर० के० पटनायक (आई० सी०-34276), पी०के० मसन्द (आई० सी०-34286) ए० के० सिंह (आई० सी०-34287), सुनील कुमार (आई० सी०-34291), के० दिवाकर (आई० सी०-34295), हरिन्द्र पाल (आई० सी०-34298), सुनील कुमार (आई० सी०-34302), पी० बी० ताम्बे (आई० सी० 34314) इन्जीनियर्स, 21 जुलाई, 1981 ।

राजगोपाल नायर (आई० सी० 36357) आर्टिलरी 19 जनवरी, 1982 (परन्तु वेतन तथा भत्ते के लिए 30 जनवरी, 1982)

स्थायी कमीशन (विशेष सूची)

लैफ्टिनेंट से कैप्टन

चेन सिंह (एस० एल० 1275) 15 सितम्बर, 1974

अल्पकालीन कमीशन

2/लैफ्टिनेंट से लैफ्टिनेंट

पी० एम० मूर्ति (एम० एस० 30298) ए० आ० सी०-1 सितम्बर, 1981 ।

मुभाप चन्द्र, लैफ्टिनेंट कर्नल
ए० एम० एस०

सं० 1833 दिनांक 20 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नसिंग अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

मालिट्री नसिंग सेवा

स्थायी

कैप्टन के रूप में

श्रीमती विद्यावती

मलिक (एन०आर०-15727) 31-12-81

श्रीमती के० सी०

मेरीयाम्मा (" " -15749) 31-12-81

श्रीमती रबीया सलमा (" " -15756) 31-12-81

श्रीमती आर० धना लक्ष्मी (" " -15815) 31-12-81

श्रीमती गुर चरण कौर (" " -15800) 31-12-81

श्रीमती एम० पी०

लीला बाई (" " -15813) 31-12-81

श्रीमती कामालक्षी (एन० आर०-15816) 31-12-81

श्रीमती के० सुमाती

देवी (" " -15817) 31-12-81

श्रीमती सुमन (" " -15823) 31-12-81

श्रीमती मधु भाटिया (" " -15828) 31-12-81

श्रीमती सन्तोष

कलिया (" " -15837) 31-12-81

श्रीमती श्रोमता

रमाजी (" " -15839) 31-12-81

कुमारी ऊषा कुमारी (" " -15834) 31-12-81 ।

नच्छतर सिंह, अवसर सचिव

सं० 1834, दिनांक 30 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर की पदोन्नति करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

2 लैफ्टिनेंट से लैफ्टिनेंट के पद पर

अमरजीत सिंह (टी०ए०-41597), इन्फैन्ट्री, 14 मार्च 1981 ।

एम० एल० कपूर, अवसर सचिव

सं० 1835, दिनांक 2 अगस्त, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

सेना सेवा कौर

(सप्ताई)

पक्के सूबेदार मेजर—सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार मेजर सोहन सिंह (जे० सी० 54596 बाई)—01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर पी० टी० राजन (जे० सी० 54601 बाई)—01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर हुकम चन्द (जे० सी०-54602 एफ)—01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर लक्ष्मी नारायण शर्मा (जे० सी०-54605 पी)—01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर पीताम्बर दत्त (जे० सी०-54606 एक्स)—01 अप्रैल, 82

सूबेदार मेजर सत्यपाल सिंह (जे० सी०-54608 एच)—01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर देशराज (जे० सी०-55247 एफ)—01 अप्रैल 82 ।

सूबेदार मेजर गनवन सिंह (जे० सी०-55254 एक्स)—01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर गनोहर राव (जे० सी० 55255 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर मलकियत सिंह (जे० सी० 55256 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर चिराडल कुटन (जे० सी० 55246 वाई०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर मनपाल शर्मा (जे० सी० 55274 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर एम० के० स्वामी गोविन्दन (जे० सी० 55277 वाई०) 01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर पी० के० गोपालन (जे० सी० 55284 पी०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर के० नारायणन (जे० सी० 55285 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर सी० बी० मुबरायडू (जे० सी० 55352 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मेजर कनवर हरनाम सिंह (जे० सी० 57516 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

पक्के सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार रमेन्द्रनाथ गंगोली (जे० सी० 61293 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार केवल कृष्ण (जे० सी० 61295 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार इन्दर सिंह (जे० सी० 59442 डब्ल्यू०) 01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार नथूनी प्रसाद (जे० सी० 61296 ए०) 01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार सुखदेव (जे० सी० 259443 वाई०) 01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार ईश्वर दाम (जे० सी० 59444 ए०) 01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार गौरीशंकर पांडेय (जे० सी० 59445 के०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार के० ए० लक्ष्मणन (जे० सी० 61299 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार राम पाल शर्मा (जे० सी० 61313 पी०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार श्रीकान्त शुक्ला (जे० सी० 61300 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार सती प्रसाद शर्मा (जे० सी० 61301 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार केणी चन्द (जे० सी० 61304) 01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार सी० ए० के० वर्गीस (जे० सी० 61305 ए०) 01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार के० कृष्णन नायर (जे० सी० 61306 वाई०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार विष्णुमित्र सिंह (जे० सी० 61309)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार पूरन चन्द प्रधान (जे० सी० 61310 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार राम सागर प्रसाद सिंह (जे० सी० 61311 के०)
01 अप्रैल, 82 ।

पक्के सूबेदार (सामान्य ड्यूटी स्टाफ ड्यूटी) के रैंक में

सूबेदार राम चन्दर (जे० सी० 63526 पी०) 01 सितम्बर, 81 ।

सूबेदार एस० के० पांडेय (जे० सी० 73301 ए०)
01 नवम्बर, 81 ।

सूबेदार शैर राम (जे० सी० 73310 ए०) 01 जनवरी, 82 ।

सूबेदार एम० एम० अन्नाप्पा (जे० सी० 73311 डब्ल्यू०)
01 जनवरी, 82 ।

सूबेदार बरला अथन्स (जे० सी० 75501 ए०)
01 जनवरी, 82 ।

सूबेदार आर० आई० नारायणा स्वामी (जे० सी० 75502 के०) 01 जनवरी, 82 ।

सूबेदार पंकाजकसन पिल्लै (जे० सी० 75503 ए०)
01 जनवरी, 82 ।

सूबेदार प्रदीप कुमार (जे० सी० 75504 पी०)
01 जनवरी, 82 ।

सूबेदार काशीराम शर्मा (जे० सी० 75505 के०)
01 जनवरी, 82 ।

सूबेदार जदुवंश सिंह (जे० सी० 75506 ए०)
01 जनवरी, 82 ।

सूबेदार जे मरिया दाम (जे० सी० 75508 ए०)
01 जनवरी, 82 ।

सूबेदार संत कुमार शर्मा (जे० सी० 75509 ए०)
01 जनवरी, 82 ।

सूबेदार छेदा सिंह (जे० सी० 75510 ए०)
01 फरवरी, 82 ।

सूबेदार गोविन्द पवार (जे० सी० 75511 ए०)
01 फरवरी, 82 ।

सूबेदार बदरी सिंह (जे० सी० 75514 वाई०)
01 मार्च, 82 ।

सूबेदार एन वरीम्वथ नायर (जे० सी० 75515 ए०) 01 मार्च, 82 ।

सूबेदार शिव स्वरूप ने (जे० सी० 75516 के०)
01 मार्च, 82 ।

सूबेदार विश्व नाथ जोशी (जे० सी० 75474 ए०)
01 मार्च, 82 ।

सूबेदार एम० वी० अश्राहम (जे० सी० 75475 ए०)
01 मार्च, 82 ।

सूबेदार हरचरण सिंह (जे० सी० 75477 डब्ल्यू०)
01 मार्च, 82 ।

सूबेदार ईश्वर सिंह डवास (जे० सी० 75478 वाई०)
01 मार्च, 82 ।

सूबेदार ए० नरसिंहमलू (जे० सी० 75481 ए०)
01 मार्च, 82 ।

सूबेदार बलवीर सिंह खुराना (जे० सी० 75483 के०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार दामोदरन नम्बियर के० के० (जे० सी० 75484 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार अपना स्वामी आई० (जे० सी० 75486 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार ए० डेविड (जे० सी० 75487 ए०) 01 अप्रैल,
82 ।

सूबेदार दलीप सिंह मटारावाला (जे० सी० 75454 पी०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार करनेल सिंह (जे० सी० 75455 ए०) 01
अप्रैल, 82 ।

पक्के सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार आनन्दी प्रसाद शुक्ला (जे० सी० 61314 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार लक्ष्मी कान्ता राव पंडियाला (जे० सी० 61315
ए०) 1 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार भूरे सिंह (जे० सी० 61316 ए०) 01 अप्रैल,
1982 ।

सूबेदार जी वामुदेव पिल्ले (जे० सी० 63423 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार प्रेम चन्द (जे० सी० 63424 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार मशी दास बिनारा (जे० सी० 63425 ए०)
1 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार गण्का राम (जे० सी० 63505 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार हंसा दत्त पंत (जे० सी० 63508 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार सी० आर० सुवरामणीया कृष्ण (जे० सी० 63506
ए०) 01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार पंचानन सिंह (जे० सी० 63509 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार शरदिन्दू मरकार (जे० सी० 63510 के०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार आर० सुन्दरम (जे० सी० 63512 ए०) 01
अप्रैल, 82 ।

सूबेदार बाके बिहारी सिंह (जे० सी० 63513 के०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार बीठल सोलापुरे (जे० सी० 64511 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार रघुवीर सिंह (जे० सी० 64512 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार गुरदयाल सिंह गुगया (जे० सी० 64513)
डब्ल्यू०) 01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार फूल कंवर भारद्वाज (जे० सी० 64514 वाई०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार लक्ष्मण चन्द सैनी (जे० सी० 64515 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार माधवन पराकुनी (जे० सी० 69003 वाई०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार करीम बक्स (जे० सी० 65441 के०) 01 अप्रैल,
82 ।

सूबेदार आदम खान (जे० सी० 65442 ए०) 01 अप्रैल,
82 ।

सूबेदार राम कुमार सिंह यादवा (जे० सी० 65444
ए०) 01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार तुलसी राम (जे० सी० 65445 ए०) 01
अप्रैल, 82 ।

सूबेदार पी० आर० ए० रामाचन्द्रन नायर (जे० सी०
65446 ए०) 01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार सुरजीत गंगोली (जे० सी० 65447 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार अक्षयवर दुग्दी (जे० सी० 65449 डब्ल्यू०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार किदार सिंह देवास (जे० सी० 65450 ए०)
01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार गुरदेव सिंह (जे० सी० 65452 डब्ल्यू०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार पाखर सिंह सोहल (जे० सी० 73324 एन०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार ऐकराम पाटिल (जे० सी० 69004 एफ०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार प्रह्लाद सिंह यादव (जे० सी० 75459 एन०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार आर० पी० कुन्थ (जे० सी० 69009 ए०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार नन्द लाल यादव (जे० सी० 75461 एल०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार दया चन्द जाखर (जे० सी० 70914 ए०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार उम्मेद सिंह खाम्बा (जे० सी० 75463 डब्ल्यू०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार धीरज सिंह विष्ट (जे० सी० 70915 के०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार श्याम लाल उप्पल (जे० सी० 75465 एफ०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार प्यारे लाल (जे० सी० 70916 एम०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार नन्दा सिंह नेगी (जे० सी० 75466 के०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार भगवान सिंह वर्मा (जे० सी० 70917 पी०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार मोहन लाल नागपाल (जे० सी० 75467 एम०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार नफे सिंह (जे० सी० 70918 एक्स०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार शिवाजी सिंह (जे० सी० 75468 पी०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार जगदीश प्रसाद शर्मा (जे० सी० 70919 ए०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार पूरन चन्द्रा पाण्डेय (जे० सी० 75469 एक्स०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार सी० आई० गंगाधरन (जे० सी० 70920 पी०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार के० के० कोशी कोशी (जे० सी० 75470 एम०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार गिरधारी लाल (जे० सी० 70922 ए०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार सत्य पाल मेहता (जे० सी० 75766 एन०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार हरि प्रसाद (जे० सी० 70923 एच०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार पी० एम० फागिम अन्थोनी (जे० सी० 75767 एन०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार एम० सी० बेबी (जे० सी० 70924 एल०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार विष्वा नाथ पाण्डेय (जे० सी० 75762 पी०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार अमीर सिंह (जे० सी० 70925 एन०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी० 75763 एक्स०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार चन्दगी राम पुरी (जे० सी० 70927 बाई०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार महादेव बाकुडे (जे० सी० 75765 एच०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार चिरंजी लाल यादव (जे० सी० 71353 के०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार बूंग राज शर्मा (जे० सी० 86194 पी०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार रूप सिंह कटोच (जे० सी० 71355 पी०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार इतवार सिंह (जे० सी० 86784 एन०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार होशियार सिंह सिवाबाग (जे० सी० 73316 पी०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार राम लिंग सनकाया (जे० सी० 86786 बाई०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार चनन सिंह गिल (जे० सी० 71356 एक्स०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार छोटेलाल गुप्ता (जे० सी० 86787 एफ०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार राम स्वरूप (जे० सी० 73317 एक्स०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार मूर्तार तिवारी (जे० सी० 86788 के०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार परम नाथ शुक्ला (जे० सी० 73318 ए०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार इन्दर सिंह (जे० सी० 86789 एम०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार एन० प्रकाशम (जे० सी० 73320 एम०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार मंगू सिंह शठौर (जे० सी० 86790 एफ०) 01 अप्रैल, 82 ।
सूबेदार जगन्नाथ (जे० सी० 73322 एच०) 01 अप्रैल, 82 ।	सूबेदार आर० मोहना राजन (जे० सी० 89048 ए०) 01 अप्रैल, 82 ।

सूबेदार दशबरी लाल (जे० सी० 89049 एच०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार भोम सिंह यादव (जे० सी० 89050 एच०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार कृष्णन नायर के० (जे० सी० 89051 ए०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार ए० पी० अरुनाचलम (जे० सी० 89052 एच०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार अनिल कुमार बासु (जे० सी० 89053 एल०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार दयाराम जोशी (जे० सी० 89054 एन०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार जान बर्गिस (जे० सी० 89055 डब्ल्यू०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार गुलजार् सिंह (जे० सी० 89056 बाई०) 01
अप्रैल, 82।

सूबेदार सुविन्दर मोहन (जे० सी० 89057 एफ०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार सरल राम (जे० सी० 89058 के०) 01
अप्रैल, 82।

सूबेदार भीम सिंह सोलंकी (जे० सी० 57525 एच०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार कृष्णा पाल सिंह (जे० सी० 59419 एच०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार राम स्वरूप (जे० सी० 69005 के०) 01 अप्रैल,
82।

सूबेदार शिव रत्न सिंह चौहान (जे० सी० 75460 एच०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार हरि राम (जे० सी० 89059 एम०) 01 अप्रैल,
82।

सूबेदार भीम लैन कपूर (जे० सी० 89060 एफ०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार राम सिंह रावत (जे० सी० 89061 के०) 01
अप्रैल, 82।

सूबेदार मरुत नारायण ठाकुर (जे० सी० 89062 एम०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार राज केशवर राम (जे० सी० 89063 पी०) 01
अप्रैल, 82।

सूबेदार ओल्कोर चन्द (जे० सी० 89527 एफ०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार और सन्मुगा वेलू (जे० सी० 89528 के०)
01 अप्रैल, 82।

सूबेदार जगत सिंह भनुरियाल (जे० सी० 89529 एम०)
01 अप्रैल, 82।

नायब सूबेदार व्यक्तिगत सहायक के रैंक में
हवलदार शिवनाथन टी० ए० (1533398 बाई० अब
जे० सी० 114938 एन०) 27 जुलाई, 81।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई, 81 से दी जायेगी)।

हवलदार देवमुनी चौधरी (6896789 एम० अब जे०
सी० 114939 डब्ल्यू०) 10 जुलाई, 81।

हवलदार टिल बहादुर पुडियाल छेत्री (1441308 एम०
अब जे० सी० 114940 एल०) 25 जनवरी, 81।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई, 81 से दी जायेगी)।

हवलदार राजन पी० एम० (6644447 ए० अब जे०
सी० 114941 एन०) 29 सितम्बर, 81।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 81 से दी जायेगी)।

हवलदार सुरेन्द्रा सिंह राता (6645490 एन०, अब जे०
सी० 114942 डब्ल्यू०) 01 सितम्बर, 81।

हवलदार निशी कान्त मिश्रा (6643137 एच० अब जे०
सी० 114943 बाई०) 12 सितम्बर, 81।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 81 से दी जायेगी)।

हवलदार गिरिश नारायण सिंह (1445520 एफ० अब
जे० सी० 114944 एफ०) 01 सितम्बर, 81।

हवलदार अमीर सिंह सेन्धु (1445757 बाई० अब जे०
सी० 114945 के०) 01 सितम्बर, 81।

हवलदार पी० जे० अगस्टिन (6299888 पी० अब जे०
सी० 114946 एम०) 03 सितम्बर, 81।

हवलदार सिमरजोत सिंह थिन्ड (6643092 एन०
अब जे० सी० 114947 पी०) 03 सितम्बर, 81।

हवलदार हरबंश सिंह राता (13813569 एफ० अब
जे० सी० 114948 एक्स०) 03 सितम्बर, 81।

हवलदार पदमनाभन के० (6643005 पी० अब जे०
सी० 114949 ए०) 04 सितम्बर, 81।

क्वर्क सामान्य ड्यूटी स्टाफ ड्यूटी के रैंक में

हवलदार आई० भटाचार जी (6635613 एफ० अब
जे० सी० 114950 पी०) 01 नवम्बर, 81।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 81 से दी जायेगी)।

हवलदार बी० एस० सिन्दगी (6634683 एल० अब
जे० सी० 114951 एक्स०) 01 अगस्त 81।

हवलदार रामाचन्द्रन नायर एम० के० (6635850 एल०
अब जे० सी० 114952 ए०) 13 दिसम्बर, 81।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 81 से दी जायेगी)।

हवलदार नन्दा दुलाल डे (6635981 डब्ल्यू. अब जे० सी० 114953 एच०) 19 जनवरी, 82।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 81 से दी जायेगी।)

हवलदार राजाधन नायर पी० आर० (6635805 बाई० अब जे० सी० 114954 एल०) 01 दिसम्बर, 81

आमती बी० नागेश्वर, अबर सचिव

(सैनिक अभियन्ता सेवायें)

सं० 1836, दिनांक 6 अगस्त, 1982—निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवा समाप्त हुई :—

श्री रत्नधीर सिंह ए० ई० ई० (ई०/एम०) (अस्थायी) 18 फरवरी, 74 (अपराह्न)

एम० ई० एस०—175208 श्री विजय वासुदेव राव कुलकर्णी ए० ई० ई० बी०/आर० (अस्थायी) 20 अप्रैल, 82 (अपराह्न)

एन० एन० मोहन्ता, अबर सचिव

सं० 1837, दिनांक 4 अगस्त, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आयु प्राप्त करने पर थल सेना से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ब्रिगेडियर हरी सिंह (आई० सी० 9536-एक्स०) इन्फैंट्री 31 जनवरी, 1982 (अपराह्न)

ब्रिगेडियर एच० सी० सिंह (आई० सी० 5946 डब्ल्यू०) इन्फैंट्री 31 जनवरी, 1982 (अपराह्न)

ब्रिगेडियर के० एस० एस० भगत (आई० सी० 7181-बाई०) ई० एम० ई० 31 जनवरी, 1982 (अपराह्न)

ब्रिगेडियर एल० आर० सचदेव (आई० सी० 9167-एल०) ई० एम० ई० 31 जनवरी, 1982 (अपराह्न)

सं० 1838, दिनांक 4 अगस्त, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसकी अपनी प्रार्थना पर निजी कारणों से थल सेना से निवृत्त होने की और उसका तबादला सेवा निवृत्ति की तारीख से 31 अक्टूबर 1986 तक अफसरों के नियमित रिजर्व (श्रेणी "एक्स") में करने की अनुमति देते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कर्नल एम० बी० रानाडे (आई० सी० 7112-एच०) आर्टिलरी, 24 मई, 1982 (पूर्वाह्न)

लेफ्टिनेंट कर्नल आई० बी० गोयल (आई० सी० 7304-ए०) इन्जीनियर्स 31 मार्च, 1982 (पूर्वाह्न)

एच० सी० सिंघल, सहायक सैनिक सचिव

(सैनिक अभियन्ता सेवायें)

सं० 1839, दिनांक 6 अगस्त, 1982—निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवानिवृत्त हुए :—

एम० ई० एम०—19124 श्री प्रेम नारायण शर्मा बी० एस० ओ० (अस्थायी), एस० के० I (स्थायी) 30 जून, 82 (अपराह्न)

एम० ई० एस० 8462901 श्री डी० डी० शर्मा, बी० एस० ओ० (अस्थायी), सुप० बी०/एस I (स्थायी) 30 जून, 82 (अपराह्न)

एम० ई० एस० 7893 श्री टी० ए० दक्षिणामूर्ति मदालियर बी० एस० ओ० (अस्थायी), सुप० बी०/एस० ग्रेड II (स्थायी) 30 जून, 82 (अपराह्न)

एम० ई० एस०—143019 श्री के० बी० राजाकुमारन नायर बी० एस० ओ० (अस्थायी) 30 जून, 82 (अपराह्न)

सं० 1840, दिनांक 6 अगस्त, 1982—निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवा समाप्त हुई :—

एम० ई० एस०—10244 श्री वी० शंकरन वालन बी० एस० ओ० (अस्थायी), सुप० बी०/एस० ग्रेड II (स्थायी) 30 जून, 82 (अपराह्न)

एन० एन० मोहन्ता, अबर सचिव

सं० 1841, दिनांक 28 जुलाई, 1982—निम्नलिखित अफसर समरी जांच के दण्डादेश अनुसार उनके नाम के सामने दी गई सेवा से बंचित होते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर एस० एम० अकबर (आई० सी० 23052) इन्फैंट्री पिछले 12 महीने की सेवा की पदोन्नति के लिए अधिहरण—1 अप्रैल, 1982।

कैप्टन दीपक धर्म (आई० सी०—27683) आर्टिलरी, तीन महीने की सेवा पदोन्नति के लिए अधिहरण—19 अप्रैल, 1982।

शुद्धि पत्र

सं० 1842, दिनांक 27 जुलाई 1982—(i) रक्षा मंत्रालय के अधिसूचना सं० 960/78 जो कि भारत के राजपत्र में 13 मई, 1978 के अन्तर्गत शीर्षक नियमित सेना, स्थायी कमीशन, लैफ्टिनेंट से कैप्टन में प्रकाशित किया गया था, उसको निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :—

एन० पी० सिंह (आई० सी० 18823) ए० ओ० सी०—15 अक्टूबर, 1977।

पढ़ा जाए :—

एन० पी० मिह (आई० सी० 18823) ए० एम० सी०—
15 अक्टूबर, 1977

(ij) रक्षा मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 2386/81 जो कि भारत के राजपत्र में 28 नवम्बर, 81 के अन्तर्गत शीर्षक नियमित सेना, स्थायी कमिशन, लेफ्टिनेंट से कैप्टन में प्रकाशित किया गया था, उसको निम्न प्रकार में संशोधित किया जाता है :—

के० एस० रनधावा (आई० सी० 20787) ए० ओ० सी०—4 फरवरी, 80 के लिए

के० एस० रनधावा (आई० सी० 20787) ए० ओ० सी०—
15 जनवरी, 78 पढ़ा जाए

मुभाष चन्द्र, ले० कर्नल
ए० एम० एस०

नौसेना विभाग

सं० 1844, दिनांक 31 जुलाई, 1981—राष्ट्रपति निम्न-लिखित सहायक आयुध पूर्ति अफसरों को उनके नाम के आगे दिये गए समय के लिए तदर्थ आधार पर उप आयुध पूर्ति अफसर ग्रेड II के पद पर नियुक्ति करते हैं :—

श्री पी० वी० जी० भास्करा राम्रो—01 फरवरी, 82 से 31 जुलाई, 82

श्री टी० के० गोविन्दन—19 जनवरी, 82 से 18 जुलाई, 1982

श्री डी० वी० ए० नरसिम्हम्—19 जनवरी, 82 से 18 जुलाई, 82

श्री आर० आर० पिल्लै—02 फरवरी, 82 से 01 अगस्त, 82

श्री एस० प्रकाशा राम्रो—01 फरवरी, 82 से 31 जुलाई 82

श्री पी० एम० मृति—19 जनवरी, 82 से 18 जुलाई, 1982 ।

सं० 1845, दिनांक 31 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति श्री एल० नरसिंघ राम्रो, ज्येष्ठ फोरमैन (गोलाबारूद कर्मशाला) को नीचे दी गई तारीखों से स्थानापन्न सहायक आयुध पूर्ति अफसर नियुक्ति करते हैं :—

(क) श्री जी० सुब्रह्मण्यम, सहायक आयुध पूर्ति अफसर जिन्हें अवकाश प्रदान किया गया है के स्थान पर दिनांक 5 अप्रैल, 82 से 14 मई, 82 तक 40 दिनों के लिए स्थानापन्न सहायक आयुध पूर्ति अफसर ।

(ख) श्री वी० सिलवारजन, सहायक आयुध पूर्ति अफसर जिन्हें अवकाश प्रदान किया गया है कि के स्थान पर दिनांक

17 मई, 82 से 29 जून 82 तक 44 दिनों के लिये स्थानापन्न सहायक आयुध पूर्ति अफसर ।

एम० सी० जुनेजा, अवसर सचिव

सं० 1846, दिनांक 25 जून, 1982—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय नौसेना

स्थायी कमिशन

इंजिनियरिंग ब्रांच

सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर

पी० मुरुगेशन (01958-जेड) 1-1-81, जे० कुमार (01912-डब्ल्यू०) 16-2-81, के० एन० देराई (01950 एफ०) 16-5-81, गिरीश लूथरा (02011-डब्ल्यू०), वाई० वी० सी० राव (01996-के), आर० के० ओखण्डियार (02020-आर०) और डी० मल्होत्रा (01962-एच०) 1-7-81, आर० बी० खाती (01984-एच०) और टी० बनर्जी (01994-एफ०) 1-8-81, एस० आर० कृष्णा (02007-के०), बी० वेनुगोपाल (01980-जेड) और ए० एस० रघुवंशी (01989-डब्ल्यू०) 16-8-81, ए० चटर्जी (01947-जेड) और आर० एम० पुरन्दरे (02072-एच०) 1-4-82, के० एस० चूड़ावत (01997-एन०), बी० के० पटनायक (02071-एफ०), एस० बी० यू० मान (02064-आर०), एस० शंकर (02088-डब्ल्यू०), ललित मोहन (02062-के०), एम० के० सिन्हा (02086-आर०) और एम० नम्बियार (02069-ए०) 16-4-82, ए० के० सिन्हा (01977-टी०), एम० सी० जोशी (02006-एच०), अशोक कैरोल (01999-टी०), एन० जे० सिंह (02028-एन०) और जी० वी० रामाकृष्ण (02076-टी०) 1-5-82, आर० के० श्रीवास्तव (02039-एच०), एल० कुमार (02056-वाई०), एच० बी० प्रामाणिक (02073-के) और के० के० उप्पल (02091-ए०) 16-5-82, नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 121 देखें ।

कार्य० सब-लेफ्टिनेंट की सब लेफ्टिनेंट के पद पर

एन० एस० एम० थामस (01907-एच०), 30-9-81 से 1-7-78 की वरिष्ठता (केवल पदोन्नति के लिए) सहित और टी० एम० के० अशोकन (01991-जेड), 7-12-80 से 1-7-79 की वरिष्ठता (केवल पदोन्नति के लिए) सहित नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 121 देखें ।

सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर

एन० एस० एम० थामस (01907-एच०), 8-1-82 और टी० एम० के० अशोकन (01991-जेड) 16-1-82 नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 121 देखें ।

टी० आर० मेहता

उप निदेशक, कार्मिक (जे० ओ० ए० एण्ड आर०)

वायु सेना मुख्यालय

सं० 1847, दिनांक 20 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति, सशस्त्र सेना मुख्यालय की सिविल सेवा में, अगले आदेश पर्यन्त, निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

(क) श्री ओम प्रकाश, स्थायी सिविलियन स्टाफ अधिकारी 19 मार्च, 1982 से स्थानापन्न मलेक्शन ग्रेड अफसर के रूप में ।

श्री ओ० पी० मायन, स्थायी सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी, 05 नवम्बर, 1981 से स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में ।

श्रीमती एम० डी० सम्पत, स्थायी सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी, 20 मार्च, 1982 से स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में ।

श्री एच० पी० सिंगल, स्थायी सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी, 01 मार्च, 1982 से स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में ।

श्री पी० आर० चन्द्रकान्तन, स्थायी सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी, 01 मार्च, 1982 से स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में ।

श्री के० वी० राघवन मेनन, स्थायी सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी, 01 अप्रैल, 1982 से स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में ।

श्री इन्दर दयाल रावत, स्थायी सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी, 01 मार्च, 1982 से स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में ।

श्री आर० बी० मधुस्वामी, स्थायी सहायक, 01 मार्च, 1982 से स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में ।

श्री दर्शन सिंह, स्थायी सहायक 19 मार्च, 1982 से स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में ।

श्री बी० वर्मा, स्थायी सहायक 20 मार्च, 1982 (अपराक्त) से स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में ।

श्री सी० एम० आलुवालिया, स्थायी सहायक, 02 अप्रैल, 1982 से स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में ।

श्री कलवन्त सिंह, स्थायी सहायक, 01 अप्रैल, 1982 से स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में ।

श्री जनमयजय, स्थायी सहायक, 01 अप्रैल, 1982 से स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में ।

दुली चन्द्र, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

वायु सेना

सं० 1848, दिनांक 29 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

परिभारिकी शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर के रूप में

भू० के० मुन्शी (11702),—23 जून, 81

जे० मिस्त्र, सहा० निदे० का अ 3 (एफ)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th August 1982

No. 1805, dated 16th July 1982.—The President is pleased to appoint the following officers as Dy Secretaries in the Min of Def wef 31st July 1982 (AN) until further orders :—

Shri H C Arora, CSS Selection Grade Select List (1980).

Shri V Y Narayan, CSS Selection Grade Select List (1980).

Shri S C Joshi, CSS Selection Grade Select List (1980).

Shri R K Dhir, CSS Selection Grade Select List (1980).

No. 1806, dated 19th July 1982.—The President is pleased to appoint Shri P S Patchullah, DI&CS, on transfer from the Office of the Director General, DL&C, as Under Secy in the Min of Def wef 9th July 1982 (FN).

No. 1807, dated 26th July 1982.—The President is pleased to appoint Shri Gautam Sen, IDAS, on transfer from the office of the Controller General of Defence Accounts, as Under Secy in the Min of Def wef 21st July 1982 (FN).

No. 1808, dated 24th July 1982.—The President is pleased to extend the deputation of Shri A K Jain, Contract Purchase Officer, Min of Def (Department of Defence Supplies) for a further period of one year, upto 21st Apr 1983 (AN).

No. 1809, dated 24th July 1982.—On expiry of his extended tenure with the Min of Def, the services of Shri Mahendra Singh, IAS (Raj: 62), are placed at the disposal of the Government of Rajasthan wef 15th July, 1982 (AN).

No. 1810, dated 12th July 1982.—The President is pleased to permit Shri J S Joshi, Pmt SO, working as Desk Officer, Min of Def to retire from Government service on attaining the age of superannuation wef the afternoon of the 31st July 1982.

L N MEHTA, Under Secy.

**MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA
KARYALAYA**

No. 1811, dated 3rd August 1982.—Having attained the age of superannuation, Shri Sabhajit Singh, Pmt ACSO, retired from service wef 31st Jul, 1982 (A/N) and transferred to pension establishment wef 1st Aug 1982 (F/N).

DULI CHANDRA, Up Mukhya Prashasan Adhikari

**DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT
ORGANISATION**

No. 1812, dated 30th July 1982.—The President is pleased to make the following appointment :—

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

Dr S M Veerabhadrapa to be tempy Scientist 'C' in the Defence Terrain Research Laboratory, Delhi on probn for a period of two years wef 19th June 1982 (FN).

No. 1813, dated 22nd July 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

The undermentioned Scientists 'B', Naval Physical and Oceanographic Laboratory, Cochin to be Offg Scientists 'C' in the same Laboratory wef 1st July 1981 (FN) :—

Shri A Unnikrishnan
Shri S Ananthanarayanan
Shri A K Prakash
Shri B S Murthy.

The undermentioned Scientists 'B', Explosives Research & Development Laboratory, Pune to be Offg Scientists 'C' in the same Laboratory wef 1st July 1981 (FN) :—

Shri N L Naryani
Shri M L Vaidya.

The undermentioned Scientists 'B', Research and Development Establishment (Engrs), Pune to be Offg Scientists 'C' in the same establishment wef 1st July 1981 (FN) :—

Shri V K Godbole
Shri N K Chopra.

S S JAMWAL, Asstt Dir (Personnel)

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 1814, dated 15th May 1982.—The President is pleased to make the following confirmations :—

Defence Quality Assurance Service

Shri S K CHADAH, Offg DCSO, CI (SV), Dehu Road, to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1973.

Shri V P CHADHA, Offg Principal Scientific Officer, CI (SV) Dehu Road, to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1973.

Dr A MUKHERJEE, Offg DCSO, CIL, Bangalore, to be Pmt Principal Scientific Officer, 25th Jul 1973.

Shri P K GANGOPADHYAY, Offg DCSO, Inspectorate of Metals Ichapur, to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1977.

Shri N C JAIN, Offg DCSO, CIGS, Kapur, to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1977.

Shri S L KHANNA, Offg DCSO, DI(A) HQ, New Delhi to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1977.

Shri T G BOEADÉ, Offg DCSO, DI(S) HQ, New Delhi to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1977.

Shri V I RAMASWAMY, Offg Principal Scientific Officer, CI (Met), Ichapur to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1977.

Dr S B RAY, Offg Principal Scientific Officer, CI (ME), Kirkee to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1977.

Shri S P DAYANITHI, Offg Principal Scientific Officer, CI (HV), Avadi, to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1977.

Shri P K Rao, Offg DCSO, Inspectorate of Electronics, Madras, to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1978.

Shri R S CHIMNI, Offg Principal Scientific Officer, CI(S) Secunderabad retired to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1978.

Shri K V RAMAMURTHY, Offg DCSO, Inspectorate of Electronics, Calcutta, to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1978.

Shri S K MANI, Offg Principal Scientific Officer, Inspectorate of Electronics, Bangalore, to be Pmt Principal Scientific Officer, 1st Apr 1978.

S GOPAL, Under Secy.

NATIONAL CADET CORPS

No. 1815, dated 27th July 1982.—The President is pleased to grant commission to the following :—

Junior Division (Army Wing)

To be Third Officers

Andhra Pradesh

Paidimukkala Anand KUMAR (NCCJ/41814), 8th Feb 1981.

K V Govindachary (NCCJ/41815), 14th Sep 1981.

Mirza Nasrullah BAIG (NCCJ/41816) and Kurmala Ranga RAO (NCCJ/41817), 15th Sep 1981.

Bitra Prasad RAO (NCCJ/41818), 16th Sep 1981.

Bihar

Jiwan Krishna RAY (NCCJ/1846), 8th Feb 1981.

Surendra KUMAR (NCCJ/1847), 16th Sep 1981.

Gujarat

Ramniklal Keshavlal BHATT (NCCJ/35669), Pranjivan Chimanlal SHAH (NCCJ/35670), Kantilal Hiralal BHAGAT (NCCJ/35671) and Babubhai Ranchhodlal PATEL (NCCJ/35672), 8th Feb 1981.

Mamubhai Chhotubhai PATEL (NCCJ/35673), 9th Feb 1981.

Dhruubhai Ranchhoji TALAVIA (NCCJ/35674), 14th Sep 1981.

Pravinsinh Prabhatsinh ANITIA (NCCJ/35675), 15th Sep 1981.

Badawala Vithaldas Jaikishandas (NCCJ/35676), 18th Sep 1981.

Haryana

Mohan Singh (NCCJ/8688), 14th Sep 1981.

Surendra Singh TYAGI (NCCJ/8689), 14th Sep 1981.

Jammu & Kashmir

Shiv Kumar GARG (NCCJ/26414), 16th Sep 1981.

Narsingh Dass Sharma (NCCJ/26415) and Mohammed Shafi Zargar (NCCJ/26416), 17th Sep 1981.

Farooq Ahmed JAN (NCCJ/26417), 18th Sep 1981.

Himachal Pradesh

Vyas BHARDWAJ (NCCJ/23929), Prem Chand BHARDWAJ (NCCJ/23930), Ram Nath CHANDEL (NCCJ/23931) and Tara Chand SHARMA (NCCJ/23932), 14th Sep 1981.

Raveendran Neelakantan (NCCJ/65073), 27th Jul 1980.
Talore Narayanaswamy SATYAN (NCCJ/65075), 3rd Nov 1980.

Shikanallur Kallappa Basavarajappa (NCCJ/65076), 1st Feb 1982.

Devendra NAYAK (NCCJ/65077), 10th Feb 1981.

Madanmohan Sheshacharya PUJAR (NCCJ/65082), 16th Sep 1981.

Paghabappa Kushnappa BANTAL (NCCJ/65083), 16th Sep 1981.

C J Putta Swamy (NCCJ/65084), 17th Sep 1981.

Madhya Pradesh

Mani Ram GUPTA (NCCJ/6254) and Satish Kumar Shrivastava (NCCJ/6255), 2nd Nov 1980.

Ram Lal VERMA (NCCJ/6256), 10th Feb 1981.

Balram TAMRAKAR (NCCJ/6257), Vijay Kumar PANDEY (NCCJ/6258), Surendra Prasad TIWARI (NCCJ/6259), Krishna Kumar Bhatia (NCCJ/6260), Mahendra Pratap SINGH (NCCJ/6261), Govind Prasad SHARMA (NCCJ/6262), and Surendra Singh THAKUR (NCCJ/6263), 14th Sep 1981.

Badri Narayan SHRIVASTAVA (NCCJ/6264), 13th Feb 1981.

Maharashtra

Trimbak Shrimantrao SHINDE (NCCJ/82018), 16th Sep 1975.

Krishan Murari GUPTA (NCCJ/82019), 30th Dec 1975.

Bharatsing Ukha THOKE (NCCJ/82020), Kankrej Subhash GULABSA (NCCJ/82021), Shinde Sadashiv KONDAJI (NCCJ/82022), and Sayyed Khudabakesh Jamadarbhai (NCCJ/82023), 2nd Nov 1980.

Uddhaw Kisanrao GODACE (NCCJ/82025), Acharya Vishwanath Bhimsen RAO (NCCJ/82024), Madhukar Gangadhar KASHIRSAGAR (NCCJ/82026) and Mukesh Kumar GOYAL (NCCJ/82027), 8th Feb 1981.

Manikrao Amonaji BAGADE (NCCJ/82032), Rannaware Sambhaji Mahadeorao (NCCJ/82033) and Moreswar Laxmanrao TARHANE (NCCJ/82034), 14th Sep 1981.

Assam

Azizur Radaman TALUKDAR (NCCJ/643), 1st Apr 1979.

Gobin Chandra SAIKIA (NCCJ/644), 19th Oct 1979.

Biman Bihari PAUL (NCCJ/645), 8th Feb 1981.

Sailendra Kumar Saharia (NCCJ/646), 11th Feb 1981.

Padmeswar Dutta (NCCJ/647), 16th Feb 1981.

Dharani Kanta BARMAN (NCCJ/648), 1st May 1981.

Punjab

Subhash Chander SEITIA (NCCJ/8679), 17th Oct 1979.

Jaspaul SHOOR (NCCJ/8686), Iekh Rai SHARMA (NCCJ/8687), Vijay Kumar VINAYAK (NCCJ/8690), Presham Singh (NCCJ/8691), Hardial Singh DHANOTA (NCCJ/8692), Kailash Chander (NCCJ/8693) and Ram Chand (NCCJ/8694), 14th Sep 1981.

Rajasthan

Babu Lal Mali (NCCJ/31646), 16th Sep 1981.

Beeru Lal Mali (NCCJ/31647), 17th Sep 1981.

Dunga Dutta BHORA (NCCJ/31648), 18th Sep 1981.

Tulsi Dass THANVI (NCCJ/31649), Shivam Sunder BORA (NCCJ/31650) and Khushala Ram (NCCJ/31651), 19th Sep 1981.

Tamil Nadu

Rangannan RANGASWAMY (NCCJ/52540), Maruthavenu Thirumalai SAMY (NCCJ/52541) and Susai Joseph XAVIER (NCCJ/52542), 15th Sep 1981.

Krishna Mooppanar Ramakrishnan (NCCJ/52543), 16th Sep 1981.

Arumugam Pillai Sivthanu (NCCJ/52544), 17th Sep 1981.

Peyton D'CRUZ (NCCJ/52545), 1st Nov 1981.

Uttar Pradesh

Tribhuvan Nath SINHA (NCCJ/13731), 16th Nov 1980.

Gopal Krishan Tiwari (NCCJ/13732), 1st Sep 1978.

Chandrika Prasad MISRA (NCCJ/13733), 29th Jul 1979.

Lakhi Ram SEMWAL (NCCJ/13734), 1st Aug 1979.

Bishan Singh RANA (NCCJ/13735), 28th Aug 1979.

English Prasad SHARMA (NCCJ/13738), 27th Jul 1980.

Kailash Chand SHARMA (NCCJ/13739), Ram Antor TOMAR (NCCJ/13740), Prem Kant Dikshit (NCCJ/13741) and Suresh Chandra MISRA (NCCJ/13742), 27th Jul 1980.

Ram Khelawan VERMA (NCCJ/13743) and Yocendra GUPTA (NCCJ/13743), 28th Jul 1980.

Padam Singh DHAMI (NCCJ/13745), 30th Jul 1980.

Akhilesh Kumar SINGH (NCCJ/13746), 28th Jul 1980.

Vijendra Singh NEHRA (NCCJ/13747), 2nd Nov 1980.

Gyoti Swaroop SRIVASTAVA (NCCJ/13748), 1st Mar 1981.

Rajendra SINGH (NCCJ/13749), 8th Jul 1981.

Mohd Tahur (NCCJ/13750), 8th Feb 1981.

Vishnu Kumar SRIVASTAVA (NCCJ/13751), 8th Feb 1981.

Shiva Prasad UPADHYAY (NCCJ/13752), 9th Feb 1981.

Jagat Singh ASWAL (NCCJ/13753), 10th Feb 1981.

Jagmer Singh PANWAR (NCCJ/13754), 13th Feb 1981.

West Bengal

Ramendra Nath MANDAL (NCCJ/15580), 2nd Nov 1980.

Amalendu MISRA (NCCJ/15581), 16th Feb 1981.

Sulumar MANDAL (NCCJ/15582), 4th Apr 1981.

Asit Kumar CHATTERJEE (NCCJ/15584), 14th Sep 1981.

Nimal Kumar DURRI (NCCJ/15585), 18th Sep 1981.

Orissa

Jadabhar ROUT (NCCJ/61579), 1st Sep 1980.

*Junior Division (Naval Wing)**Andhra Pradesh*

Chodiseti Dharmaraju (NCCJN/41819) and Khambham-paty Venkata RAMANA (NCCJN/41821), 19th May 1981.

Teknalla Venkata Raja RAO (NCCJN/41820), 16th May 1981.

Chandigarh

Narinder SINGH (NCCJN/8683), 17th May 1981.

Haryana

Narindra Singh NEGI (NCCJN/8684) and Krishan VASHIST (NCCJN/8685), 17th May 1981.

Karnataka

Perebki Narayana MOOLYA (NCCJN/65072), 29th Jun 1980.

Maharashtra

Dhondiba Pandurang Kamble (NCCJN/82028), 17th May 1981.

Rajasthan

Vijay Kumar Bhatnagar (NCCJN/31644), 21st May 1981.

Lakshmi Kant Kandpal (NCCJN/31645), 20th May 1981.

Tamil Nadu

Muthyswamy Raghunathan (NCCJN/52537), 17th May 1981.

Gnanapragasm Pushpa RAI (NCCJN/52538), 19th May 1981.

Maruthi Periyasamy (NCCJN/52539), 1st June 1981.

Uttar Pradesh

Arun Kumar Mathur (NCCJN/13736), 28th Jul 1978.

Awadh Nandin DIXIT (NCCJN/13737), 9th Jul 1979.

West Bengal

Bir Bhann GIRI (NCCJ/15583), 6th Jul 1981.

Orissa

Tilochan Padhy (NCCJN/61577) and Lakshmi Narayan SAHU (NCCJN/61578), 20th Jul 1978.

*Junior Division (Air Wing)**Andhra Pradesh*

Mathe Surendra Bengar PAUL (NCCJA/41822), 6th Oct 1981.

Bihar

Brajesh Narain JHA (NCCJA/1848), 4th Mar 1981.

Bibhuti Bhushan (NCCJA/1849), Md Shafi Hassan. (NCCJA/1850) and Krishna Nand PANDEY (NCCJA/1851), 9th Oct 1981.

Gujarat

Govind Singh Mansinh Bhatti (NCCJA/35667), 13th Oct 1981.

Rajanikand P Patel (NCCJA/35668), 1st Mar 1981.

Haryana

Ashok Pandit (NCCJA/8681), 1st Mar 1981.

Ravi Dutt BHARDWAJ (NCCJA/8696), 7th Oct 1981.

Punjab

Gurcharan Singh (NCCJA/8680), 1st Mar 1981.

Satinder Singh KHERA (NCCJA/8682), 1st Mar 1981.

Ram Saran BIALA (NCCJA/8697) and Ramesh Chand (NCCJA/8695), 7th Oct 1981.

Karnataka

B K Narashimha MURTHY (NCCJA/65074), 28th Sep 1980.

Nagalingam Sundaram (NCCJA/65078), P Viswanatha (NCCJA/65079) and Krishna Nagaraja (NCCJA/65080), 1st Mar 1981.

K P Malleswarachary (NCCJA/65081), 2nd Mar 1981.

Madhya Pradesh

Sudhir Kumar ASTHANAN (NCCJA/6252), 7th Oct 1981.

Rajendra Kumar SHARMA (NCCJA/6253), 13th Oct 1981.

Maharashtra

Jaiprakash Wajantrao JACOB (NCCJA/82029) and Pardeep M DHIWAL (NCCJA/82030), 1st Mar 1981.

Achvuth Vijayanand (NCCJA/82031), 28th Sep 1981.

Rajasthan

Bhag Chand KHORWAL (NCCJA/31652), 13th Oct 1981.

Tamil Nadu

Ananthanarayanan Sankaranarayanan (NCCJA/52536), 28th Sep 1980.

*Girls Division (Senior Wing)**To be 2/Lt**Tamil Nadu*

Miss THILAGAM PILLAI (NCC/GD/5465), 1st June 1977.

Mrs VASUNDHARA DEVI PARAMESWARAN NAIR SARADAMMA (NCC/GD/5480), 17th Jul 1978.

Haryana

Mrs TRIPAT SHARMA (NCC/GD/7207), 7th Apr 1980.

Uttar Pradesh

Miss MRIDULA AGARWAL (NCC/GD/6775), 14th Sep 1980.

Miss SUCHITA MUKHERJEE (NCC/GD/6776), 19th Nov 1979.

Gujarat

Miss MALINI RASIKLAL POTA (NCC/GD/8797), 11th Nov 1980.

Maharashtra

Miss SNAHA RUPA SHANTILAL (NCC/GD/5154), 24th Sep 1980.

Mrs SUHASINI CHANDRAKANT KOHOK (NCC/GD/5155), 23rd Sep 1980.

Madhya Pradesh

Miss MAMTA RANI SHARMA (NCC/GD/5771), 3rd Jul 1980.

Maharashtra

Miss YEIMMA BABULAI PILLAY (NCC/GD/5152), 30th Jul 1978.

Andhra Pradesh

Miss PAULINE MARY MUIRE (NCC/GD/8084), 2nd July 1980.

Mrs MOMPEDIA SESHAGIRI (NCC/GD/8085), 7th Jul 1980.

Miss MAGGAM SARAH SIREESH KUMARI (NCC/GD/8086), 5th Jul 1980.

Miss MANTHA SHIRI DEVI (NCC/GD/8087), 4th Jul 1980.

Goa

Miss MARIA JOSE CORREIA DE METREZES (NCC/GD/7548), 3rd Jul 1980.

Kerala

Mrs GOURI KUTTY AMMREMA BAI AMMA (NCC/GD 7864), 12th Jul 1980.

Maharashtra

Miss MADHU DASS (NCC/GD/5153), 2nd Jul 1980.

Tamil Nadu

Miss CHANDINI KOILAMPARAMPIL GOVIND PILLAI (NCC/GD/5485), 4th Jul 1980.

Uttar Pradesh

Miss BALBJR KAUR KEER (NCC/GD/6793), 3rd Jul 1980.

Mrs ARCHNA MOGHE (NCC/GD/6794), 2nd Jul 1980.

NER

Mrs I T ASANGIA JAMIR (NCC/GD/7347), 8th Jul 1980.

West Bengal

Miss SAVITA SAIGAL (NCC/GD/6056), 7th Jul 1980.

Andhra Pradesh

Miss DHARATULA VIJAYA LAKSHMI (NCC/GD/8090), 26th Dec 1980.

Uttar Pradesh

Miss SUNITA BAI GUPTA (NCC/GD/6778), 24th Dec 1980.

Miss CHANDRA PRABHA KULVE (NCC/GD/6779), 24th Dec 1980.

Mrs SANTOSH RANI (NCC/GD/6780), 24th Dec 1980.

NER

Miss SANDHYA DAS (NCC/GD/7348), 26th Dec 1980.

Andhra Pradesh

Mrs DURGAMPULI NAVODAYA (NCC/GD/8088), 27th Dec 1980.

Miss KAMBHAYATUGHAR LALITA BAI (NCC/GD/8089), 27th Dec 1980.

Tamil Nadu

Mrs MANORAMA VINITHA (NCC/GD/5486), 27th Dec 1980.

Miss C BEJULAHVYASANTHA KUMARI (NCC/GD/5487), 26th Dec 1980.

Karnataka

Miss SASANTHA KUMARI (NCC/GD/7549), 24th Dec 1980.

Miss RAJANI K DIXIT (NCC/GD/7550), 30th Dec 1980.

Andhra Pradesh

Mrs MALLA JESYULA INDIRA (NCC/GD/8091), 3rd Jul 1981.

Bihar

Miss ANITA MUKHERJI (NCC/GD/6318), 6th Jul 1981.

Madhya Pradesh

Miss ARTEE VAISH (NCC/GD/5774), 1st Jul 1981.

Maharashtra

Mrs BADADE SHAMALNAND KISHORE (NCC/GD/5156), 1st Jul 1981.

Miss DARSHIKA WANKHEDE (NCC/GD/5157), 1st Jul 1981.

Punjab

Miss TEJINDER KAUR (NCC/GD/7208), 1st Jul 1981.

Miss NAV KIRAN KAUR (NCC/GD/7209), 1st Jul 1981.

Uttar Pradesh

KUMARI KUMKUM SHARMA (NCC/GD/6781), 1st Jul 1981.

Maharashtra

Dr BHARATI BAPURAO JADHAV (NCC/GD/5158), 11th Jul 1981.

Tamil Nadu

SEELVI SETHURAMAN GFETHA (NCC/GD/5491), 24th Sep 1981.

Miss NESAMANI SHEELA DANIEL (NCC/GD/5492), 18th Mar 1982.

Miss SANKARANARAYANAN PARVATHAM (NCC/GD/5493), 18th Mar 1982.

RAMANATHAN UMayAL (NCC/GD/5494), 11th Mar 1982.

Karnataka

Mrs REGINA SUBRAMONY (NCC/GD/7551), 24th Dec 1981.

Madhya Pradesh

Miss SANTOSH JAIN (NCC/GD/5775), 22nd Dec 1981.

Mrs KALPNA BOHRE (NCC/GD/5776), 20th Dec 1981.

Haryana

Miss RAMA SHARMA (NCC/GD/7213), 20th Dec 1981.

Tamil Nadu

Miss GOPALA SWAMY BARADHA (NCC/GD/5489), 23rd Dec 1981.

Miss GFETHA LAKSHMINARASIMHAN (NCC/GD/5490), 23rd Dec 1981.

Uttar Pradesh

Miss RITA SHARMA (NCC/GD/6782), 20th Dec 1981.

Mrs USHA SIROHA (NCC/GD/6783), 20th Dec 1981.

Mrs SUDHA SINGH (NCC/GD/6784), 21st Dec 1981.

No. 1816, dated 26th July 1982.—The President is pleased to promote the following lady officers :—

*Girls Division (Senior Wing)**Capt's to be Majors**Gujarat*

Miss DEVBALA ISUERIAL JANI (NCC/GD/8717), 30th Jun 1978.

Miss BHAGAVATI VYAS (NCC/GD/8724), 28th Jun 1979.

Haryana

Miss GURCHARAN KAUR (NCC/GD/7035), 28th Jun 1979.

Miss JANAK GROVER (NCC/GD/7029), 15th Aug 1979.

4—214 GI/82

Punjab

Mrs JANKI SHARMA (NCC/GD/7032), 28th Jun 1979.

Tamil Nadu

Mrs HASEENA BEGUM (NCC/GD/5425), 6th Mar 1979.

Miss THEODORERSI ANNIELET SHELLY (NCC/GD/5419), 3rd Nov 1978.

Uttar Pradesh

Miss RAJ KUMARI GUPTA (NCC/GD/6548), 30th Jun 1978.

Miss SOAMI PYARI ANAND (NCC/GD/6567), 28th Jun 1979.

West Bengal

Miss SHUKLA GHOSH (NCC/GD/6018), 20th Feb 1979.

Mrs SANDHYA DATTA (NCC/GD/6023), 28th Jun 1979.

*2/Lt to be Lt**Punjab*

Mrs SANDHYA DATTA (NCC/GD/6023/), 28th Jun 1979.

*Lt to be Capt**Delhi*

Mrs SNEH PRABHA (NCC/GD/6819), 28th Jan 1979.

Kerala

Mrs UMA N NAIR (NEE Mrs YNA SREEDGARAB) (NCC/GD/7825), 14th Aug 1979.

Uttar Pradesh

Mrs KANCHAN CHANDWANI (NEE Miss KANCHAN MEHROTRA) (NCC/GD/6665), 24th Sep 1978.

*2/Lt to be Lt**Andhra Pradesh*

Miss SUNDARA RAJESWARI KAVALIPATI (NCC/GD/8074), 6th Apr 1979.

Mrs SYEDA ZAINAB BIBI (NCC/GD/8071), 10th May 1978.

Maharashtra

Mrs URMILA D PATEL (NCC/GD/5130), 1st Aug 1979.

Mrs SANJIVANI MATHAVALE (NCC/GD/5121), 30th Nov 1978.

Miss NIRLEPIKA MANIKANT PATEL (NCC/GD/5128), 1st Aug 1979.

Mrs RAKSA ANIL DESAI (NCC/GD/5131), 1st Aug 1979.

Punjab

Mrs SATWANT KAUR (NCC/GD/7132), 1st Jul 1978.

Tamil Nadu

Miss T S BHAMA (NCC/GD/5463), 3rd Aug 1979.

Uttar Pradesh

Miss MAYA BAHAL (NCC/GD/6714), 1st Jul 1976.

Mrs RANI KHANNA (NCC/GD/6731), 30th Nov 1978.

*Lt to be Capt**Chandigarh Admn*

Mrs BALWINDER SAHOTA (NEE Miss BALWINDER KAUR GILL) (NCC/GD/7111), 10th Mar 1979.

Uttar Pradesh

Mrs VIDYA WATI GUPTA (NEE Miss VIDYA WATI GUPTA) (NCC/GD/6713), 4th Jun 1979.

Miss INDERJEET KAUR (NCC/GD/6682), 14th Jul 1979.

Mrs ANSUYA SINGH (NEE Miss ANSUYA JADON) (NCC/GD/6695), 1st Jul 1979.

Miss INDRA NIGAM (NCC/GD/6688), 14th Jul 1979.

Mrs VIMLA KUMARI SHUKLA (NCC/GD/6694), 25th Aug 1979.

West Bengal

Miss GITA SIRCAR (NCC/GD/6039), 28th Mar 1978.

Mrs TAPATI SEN GUPTA (NEE Miss TAPATI DAS GUPTA) (NCC/GD/6042), 27th Mar 1978.

2/Lt to be Lt

Karnataka

Miss SUNEETI M ULLAGADDI (NCC/GD/7532), 15th Aug 1979.

Kerala

Mrs CHANDRIKA DEVI G (NCC/GD/7860), 17th Aug 1979.

Lt to be Capt

Karnataka

Miss GEETA VYAS TANTRI (NCC/GD/7526), 15th Aug 1979.

Tamil Nadu

Miss MA JNDRANI (NCC/GD/5444), 30th Jun 1980.

Uttar Pradesh

Miss GURCHARAN JEET KAUR (NCC/GD/6663), 5th Mar 1978.

Mrs NAIN TARA (NCC/GD/6659), 3rd Dec 1978.

2/Lt to be Lt

Delhi

Mrs S PATHAK (NCC/GD/6832), 7th Dec 1980.

Uttar Pradesh

Mrs MANJU KUMARI SHARMA (NCC/GD/6745), 3rd Jul 1980.

Maharashtra

Mrs KANCHAN KUNTHI NATH KAPSE (NCC/GD/5143), 3rd Dec 1981.

Punjab

Mrs SHAWINDER PAUL KAUR (NCC/GD/7187), 9th Aug 1980.

Madhya Pradesh

Mrs ASHA TIWARI (NCC/GD/5756), 30th Jun 1977.

Tamil Nadu

M C JAMUNA (NCC/GD/5459), 9th Aug 1980.

Haryana

Miss AMARJEET DINGRA (NCC/GD/7192), 10th Jan 1981.

Lt to be Capt

Uttar Pradesh

Mrs BINTE ZAHRA RIZVI (NCC/GD/6712), 30th Jun 1980.

Maharashtra

Miss DEVI CHANDUMAL PUNWANI (NCC/GD/5095), 12th Feb 1981.

Capt to be Major

Uttar Pradesh

Miss SUNITA ASTHA (NCC/GD/6565), 28th Jun 1980.

Mrs. T GODIYAL (NCC/GD/6584), 11th Jul 1980.

Maharashtra

Mrs. JYOTI DILIP VOHRA (NCC/GD/5028), 9th Aug 1980.

Chandigarh

Mrs SHAKUNTALA KHULLAR (NCC/GD/7033), 10th Nov 1979.

2/Lt to be Lt

Uttar Pradesh

Mrs LENA PAUL (NCC/GD/6748), 4th Jan 1981.

Lt to be Capt

Himachal Pradesh

Miss USHA BANDI (NCC/GD/7126), 5th Aug 1981.

Uttar Pradesh

Mrs KALPANA NAYAL (NCC/GD/6683), 5th Aug 1981.

Capt to be Major

Gujarat

Mrs. TARA TYAGRAJAN (NCC/GD/8734), 5th Aug 1981.

2/Lt to be Lt

Uttar Pradesh

Miss SHIROMANI SRIVASTAVA (NCC/GD/6760), 4th Jan 1982.

Miss PRIMROSE GRACIOUS BRISCOT (NCC/GD/6743), 5th Aug 1981.

Kerala

Mrs K VIJAYAMMA (NCC/GD/7863), 1st Jul 1982.

Lt to be Capt

Tamil Nadu

Mrs ANURADHA (NCC/GD/5455), 14th Oct 1981.

Capt to be Major

Gujarat

Miss N K TRIVEDI (NCC/GD/8744), 16th Jul 1982.

Orissa

KUMUDINI BARAI (NCC/GD/8304), 9th Aug 1980.

V K MURTHY, Dir of Pers.

No. 1817, dated 2nd August 1982.—The undermentioned is granted the hony rank of Col in the NCC and is appointed as Honorary Colonel Commandant NCC in Nagpur University, Nagpur for the period of his appointment as Vice-Chancellor :—

Shri Gulabrao B Kadam, Vice-Chancellor, Nagpur University, NAGPUR—16th Dec 1981.

A S BEDI, Dy Secy (Trg & Cer)

DTE GEN NCC

No. 1818, dated 3rd August 1982.—Having attained the age of superannuation, Shri G L Sondhi, pmt Asstt/offg ACSO, retired from service wef 31st Jul, 1982 (A/N) and transferred to pension establishment wef 1st Aug 1982 (F/N).

SECURITY OFFICE

No. 1819, dated 3rd August 1982.—Having attained the age of superannuation, Shri A N Singhal, pmt ACSO/offg CSO, retired from service wef 31st Jul, 1982 (A/N) and transferred to pension establishment wef 1st Aug 1982 (F/N).

DULI CHANDRA, Up Mukhya Prashasan Adhikari

No. 1820, dated 3rd August 1982.—The President is pleased to make the following appointment:

**RADAR AND COMMUNICATION PROJECT
OFFICE**

Shri D P AHUJA, Pt SDO of DL & C Service to be Dy Project Officer (Lands) for a period of six months wef 24th May 1982 (F/N) or till such time the Recruitment Rules for the post are finalised, whichever is earlier.

B P JOSHI, Dy CAO.

DIRECTORATE GENERAL OF INSPECTION

No. 1821, dated 4th August 1982.—On attaining the age of 58 years on 20th July 1982, Shri O P DUBE, CSO, retired from service wef 31st July 1982 (AN) and transferred to pension establishment wef 1st Aug 1982.

No. 1822, dated 4th August 1982.—On attaining the age of 58 years on 24th July 1982, Shri DAYA RAM, CSO, retired from service wef 31st July 1982 (AN) and transferred to pension establishment wef 1st Aug 1982.

(G S BRANCH)

No. 1823, dated 22nd July 1982.—The President is pleased to promote Shri Shiv Dayal, Offg Asstt as Offg Asstt CSO, in the AHQ Civil Service wef 1st Jul, 1982 until further orders *vice* Shri Mohan Lal, retired.

S P MAHESHWARI, Dy CAO.

No. 1824, dated 2nd August 1982.—The President is pleased to appoint the undermentioned officers as Jr Analysts (Group 'B'—Gazetted) in a subs capacity from the date(s) indicated against their names:—

Sl No., Name & Designation and Date of Confirmation as

Junior Analyst

1. Shri Prem Chand Goel, Pmt Record Analyst/Offg Junior Analyst—17th Apr 1982
2. Shri Dipankar Roy, Pmt Record Analyst/Offg Junior Analyst—17th Apr 1982.
3. Shri Gurcharan Jit, Pmt Record Analyst/Offg Record Analyst/Offg Junior Analyst—17th Apr 1982.

DULI CIANDRA, Up Mukhya Prashasan
Adhikari (P).

(DGAFMS)

CORRIGENDUM

No. 1825, dated 30th July 1982.—In Min of Def, Notn No. 555, dated 17th Feb 1982, published in the G of I dated 13th Mar 1982, under the heading "ARMY BRANCH—DGAFMS" and sub heading "Asstt to be Offg Assistant Civilian Staff Officer", the following amendment is made:—

For "Shri Mulk Raj Wadhwa"

Read "Shri Mulkh Raj Wadhwa"

S P MAHESHWARI, Dy CAO.

(Personal Staff)

No. 1826, dated 4th August 1982.—The President is pleased to make the following appointments on his personal staff wef 08th Jun 1982 (FN):—

To be Honorary Surgeon

Lt Gen I. D Khurana, PVSM, VSM, DMS (Army) (MR-00426F).

Surg Rear Admiral P R K Nair, VSM, DMS (Navy) (MR-00489K).

To be Honorary Dental Surgeon

Maj Gen P C Kochhar, Director of Dental Services (DR-10046W).

ASHIM CHATTERJI, Jt Secy.

No. 1827, dated 24th July 1982.—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt (Flt Lt) (on probn)

Kutagolla Veerabhadrapa GANESH, MB, BS (MR-04344 W) (16491), AMC, 15th May 1981.

Krishna Bahadur MISRA, MB, BS (MR-04349P) (16499), AMC, 12th June 1981.

To be Capt (on probn)

Satya Prakash Venkatachalam TURLAPATI, MB, BS, (MR-04345Y), AMC, 15th May 1981.

No. 1828, dated 27th July 1982.—The President is pleased to make the following appointments for a period of 3 years under AI 15/79:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt (on probn)

HIMANSHU SHANKER SHARMA, BDS (Pb) (DS-11538F), 14th June 1981.

HARI KISHANRAO THOMIRE, BDS (Bom) DS-11539 K), 14th Sep 1981.

RAKESH KUMAR SHARMA, BDS (Pb) (DS-11541F)—14th Aug 1981.

SANJEEV HARBARNS GUPTA, BDS (Pb) (DS-11543 M), 14th Aug 1981.

(Miss) RITA RONALD, BDS (Bangalore) MDS (Kerala) (DS-11547H)—22nd Sep 1981.

ANIL SABAIK, BDS (Indore) (DS-11548L)—5th Oct 1981.

SUBODH KUMAR SINGH, BDS (Patna) (DS-11549N)—5th Oct 1981.

SATISH CHANDER RAIPUT, BDS (Patna) (DS-11550 H)—04th Nov 1981.

ASHWANI KUMAR GUPTA, BDS (Pb) (DS-11551L)—4th Nov 1981.

SHAILENDRA KUMAR JAIN, BDS (Lucknow) (DS-11554Y)—4th Nov 1981.

(Mrs) MANJU AHUJA, BDS (Lucknow) (DS-11555F)—4th Nov 1981.

ANIL AHUJA, BDS (Pb) (DS-11556K)—4th Nov 1981.

(Miss) REETA RAJKISHOR VIVANI DPS (Maharashtra) (DS-11557M)—7th Nov 1981.

(Miss) RAMNI KUMAR, BDS (Madras) (DS-11558)—08th 1981.

NACHHATAR SINGH, Under Secy.

MILITARY ENGINEER SERVICES

No. 1829, dated 2nd August 1982.—The President is pleased to appoint Shri Narendra Kumar, Asstt EE Electrical/Mechanical (Staff Officer Grade 3) in the Office of the Chief Engineer Rajasthan and Gujarat Zone Jaipur to carry out the duties of Executive Engineer Electrical/Mechanical (Staff Officer Grade 2) in that Office in addition to his own duties for the period 01st Dec 1980 to 14th Jan 1981 (AN).

No. 1830, dated 4th August 1982.—The President is pleased to appoint MES-8464025 Shri Tarlok Chand Mehta, Pmt Supdt E/M Gde 1, Offg Asstt Engineer E/M wef 29th Mar 1982 (FN) till further orders.

He will be on probn for two years.

M C JUNEJA, Under Secy.

MILITARY LANDS AND CANTONMENTS SERVICE

No. 1831, dated 31st July 1982.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, in the Senior Administrative Grade (Director/Dy Director General) of the Military Lands and Cantonments Service wef the dates shown against their names :—

Shri J S Manavalan—1st Aug 1976.
Shri R K Chaturvedi—1st Aug 1976.
Shri K R K Menon—1st Aug 1976.
Shri T S Sivaswamy—1st Aug 1976.
Shri S L Khurana—1st Aug 1976.
Shri K Raghunathan—30th Nov 1976.
Shri S Mazumdar—30th Nov 1976.
Shri H S Lamba—3rd Jan 1977.
Shri A Fonseca—4th Apr 1977.
Shri Hans Raj—1st Nov 1979.

R K CHATURVEDI, Director General.

No. 1832, dated 2nd August 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION Capt to Major

Krishan Kant (IC-28442) ASC, 21st Feb 1982.
T R N Sinha (IC-28638) AEC, 21st Feb 1982.
R K Sharma (IC 26812), K V Manikunju (IC 26829), V K Malhotra (IC 26845), V K Khajuria (IC 26866), K N P Sinha (IC 26975), C M Puri (IC 26983) and Pal Singh (IC 26998), EME—30th Apr 1982.
J S Dhaliwal (IC 26825), Satpal Singh (IC 26826), G S Sudan (IC 26872), P D Sharma (IC 26875), Krishna Kumar (IC 26985), Narendra Nath (IC 28097), K C Rajput (IC 28117) and G S Chopra (IC 28170), Artillery, 30th Apr 1982.
S N Tivary (IC 26835), P S Bhan (IC 26848), J S Diwana (IC 26870), K K Pandey (IC 26882), H S Ahuja (IC 26885), S J S Sahi (IC 26898), J B Singh (IC 26903), A I D'oute (IC 26970), R G Das (IC 26971), P K Saigal (IC 26994), H D Pillai (IC 28007), H S Virk (IC 28014), K Kottal (IC 28044), J V S Tootia (IC 28047), A V K Kunhimon (IC 28056), V N Dwivedi (IC 28058), R S Keer (IC 28072), Avtar Singh (IC 28081), U C Srivastava (IC 28105), K P S Bhadauria (IC 28124), N G J D'Costa (IC 28146), Bachiter Singh (IC 28148), B B Basra (IC 28172), M K Pal (IC 28178), Raj Kishore (IC 28190), and D Tyagi (IC 28226) Artillery, 30th Apr 1982.
A S Bharara (IC 26843), P P Singh (IC 26869), S S Passi (IC 26939), S S Balaggan (IC 26974), V P Sayal (IC 26999), Rishi Paul (IC 28043), Ravinder Kumar (IC 28145), K K Duggal (IC 28155) and A R Kulkarni (IC 28159), AOC, 30th Apr 1982.
J K Gulia (IC 26863), Dalpat Singh (IC 26813), Madanpal Singh (IC 26871), K S Randhawa (IC 26942), S S Dhillon (IC 28028), O P Sharma (IC 28045), B R Adhikari (IC 28225), and S P Malhotra (IC 28241), Armd Corps, 30th Apr 1982.
T C Mathur (IC 26865), Harjap Singh (IC 26916), and S S N Joshi (IC 28029), Signals, 30th Apr 1982.
B Sharma (IC 26912) and B K Bansal (IC 28048), Signals, 30th Apr 1982.
R K Anand (IC 26923), V K Kashyap (IC 26932), D K KAPOOR (IC 26938), S N Tiwary (IC 28015), C A Chawade (IC 28026), S L Manaktala (IC 28036), K Viswanathan (IC 28067), Joginder Singh (IC 28091), N G Nambar (IC 28092), J S Dua (IC 28094), S C Chhabra (IC

28115), A K Baluja (IC 28152), H P Jauhar (IC 28194) and V Kunju (IC 28223), ASC, 30th Apr 1982.

P S Bhatnagar (IC 28065) AEC, 30th Apr 1982.

Lts to be Cpts

Sarvinder Singh (IC 30815), Armoured Corps, 21st Jul 1981.

V K Singh (IC 30927) ASC, 21st Jul 1981.

R M Singh (IC 30948), C J Anand (IC 30992) Military Farms, 21st Jul 1981.

J Tripathy (IC 30772), M P Singh (IC 430837), B K Deka (IC 30851), A K Singh (IC 30884), K D Singh (IC 30890) Signals, 21st Jul 1981.

S Hingorani (IC 30919) Signals, 1st Jul 1981 (but for the purpose of pay and allowances from 25th Jul 1981).

J S Virk (IC 34268), R K Puni (IC 34289), Arjan Singh (IC 34293), L Samson (IC 34299), D K Y Ashara (IC 34301), S M Parulkar (IC 34303), N K Atul (IC 34328), Jatinder Kumar (IC 34330), signals, 21st Jul 1981.

A B S Brar (IC 30805), S M Joshi (IC 34261), K J Singh (IC 34265), P N Awasthi (IC 34273), H S Sekhon (IC 30851), A K Singh (IC 30884), K D Singh (IC 30890) J S Sahota (IC 34310), N N Samantray (IC 34315), EME, 21st Jul 1981.

K P Aggarwal (IC 30761), R G Kadam (IC 30778), R Sharma (IC 30779), V B Gore (IC 30842), D M Patel (IC 03843), K S Bisht (IC 30889), K N Jayaprakash (IC 30900), Mandev Singh (IC 30912), R Batra (IC 30913), R S Verma (IC 30916), K Krishan Kher (IC 30928), C P Sinha (IC 30940), V K Khanna (IC 30741), Artillery, 21st Jul 1981.

C K Kadian (IC 30765), Inf, 21st Jul 1981.

Mohan Inder (IC 30775), Inf, 22nd Jan 1981.

A K Rai (IC 30867), O S Kharyal (IC 30873), L S Nandan (IC 30874), K Nair (IC 30893), S Sankar (IC 30895), Amar Singh (IC 30902), K Pathania (IC 30904), I S Sandhu (IC 30921), N S Rathore (IC 30929), B S Bisht (IC 30945), Inf, 21st Jul 1981.

A T Parnaik (IC 30701), U Joshi (IC 30827), R K Pattanaik (IC 30880), B Vikram (IC 30925), C D Nikam (IC 30931), S K Sharma (IC 34260), R S Poras (IC 34269), D Gopinath (IC 34274), R K Pathak (IC 34276), P K Masand (IC 34286), A K Singh (IC 34287), Sunil Kumar (IC 34291), K Divakar (IC 34295), Harinder Pal (IC 34298), Sunil Kumar (IC 34302), P V Tambay (IC 34314) Engineers, 21st Jul 1981.

Rajgopal Nair (IC 36357) Artillery, 19th Jan 1982 (but for the purpose of pay and allowances from 30th Jan 1982).

PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

Lts to be Cpts

Chet Singh (SL 1275), 15th Sep 1974.

SHORT SERVICE COMMISSION

2/Lt to be Lt

P J Murthy (SS 30298) AOC, 1st Sep 1981.

SUBHASH CHANDER, Lt Col, AMS.

No. 1833, dated 20th July 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Military Nursing Service

(Permanent Commission)

Lt to be Capt

Mrs VIDYAWATI MALIK (NR-15727), 31st Dec 1981.

Mrs K C MARIAMMA (NR-15749), 31st Dec 1981.

Mrs RABIA SALMA (NR-15756), 31st Dec 1981.

Mrs R DHANALAKSHMI (NR-15815), 31st Dec 1981.

Mrs GURCHARAN KAUR (NR-15800), 31st Dec 1981.

Mrs M P LEELA BAI (NR-15813), 31st Dec 1981.
 Mrs P KAMALASHI (NR-15816), 31st Dec 1981.
 Mrs K SUMATHI DEVI (NR-15817), 31st Dec 1981.
 Mrs SUMAN (NR-15823), 31st Dec 1981.
 Mrs MADHU BHATIA (NR-15828), 31st Dec 1981.
 Mrs OMANA RAMANI (NR-15839), 31st Dec 1981.
 Miss USHA KUMARI (NR-15834), 31st Dec 1981.

NACHHATAR SINGH, Under Secy.

No. 1834, dated 30th July 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

(Territorial Commission)

2/Lt to be Lieut

AMARJIT SINGH (TA-41597), Infantry, 14th Mar 1981.

M L KAPOOR, Under Secy.

No. 1835, dated 2nd Aug 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS

(SUPPLY)

To be substantive Subedar Major/Subedar (Clerk GD)

To be substantive Subedar Major (Clk GD)

Subedar Major Sohan Singh (JC-54596Y), 01st Apr 1982.
 Subedar Major P T Rajan (JC-54601Y), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Hukam Chand (JC-54602F), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Laxminarain Sharma (JC-54605P), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Pitambar Datt (JC-54606X), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Satpal Singh (JC-54608H), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Desh Raj (JC-55247F), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Santan Singh (JC-55254X), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Manohar Lal (JC-55255A), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Malkiat Singh (JC-55256H), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Chirayil Kuttan (JC-55246Y), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Satpal Sharma (JC-55274L), 01st Apr 1982.
 Subedar Major M Krishna Swamy Govindan (JC-55277Y), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Padinjare Kalath Gopalan (JC-55284P), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Kandanath Narayanan (JC-55285X), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Chandur Venkata Subbarayudu (JC-55352X), 01st Apr 1982.
 Subedar Major Kanwar Harnam Singh (JC-57516F), 01st Apr 1982.
 To be substantive Subedar Clerk (GD)
 Subedar Ramendra Nath Ganguly (JC-61293M), 01st Apr 1982.
 Subedar Kewal Krishan (JC-61295X), 01st Apr 1982.
 Subedar Inder Singh (JC-59442W), 01st Apr 1982.
 Subedar Nathuni Prasad (JC-61296A), 01st Apr 1982.
 Subedar Sukh Deo (JC-59443Y), 01st Apr 1982.

Subedar Ishwar Dass (JC-59444F), 01st Apr 1982.
 Subedar Gouri Shankar Pandey (JC-59445K), 01st Apr 1982.

Subedar Korembeth Nalambran Lakshmanen (JC-61299N), 01st Apr 1982.

Subedar Ram Pal Sharma (JC-61318P), 01st Apr 1982.

Subedar Shri Kant Shukla (JC-61300X), 01st Apr 1982.

Subedar Sati Prasad Verma (JC-61301A), 01st Apr 1982.

Subedar Keshi Chand (JC-61304), 01st Apr 1982.

Subedar Valliathu Lochu Kunju Varghese (JC-61305H), 01st Apr 1982.

Subedar Kutty Krishnan Nair (JC-61306Y), 01st Apr 1982.

Subedar Viswamitra Singh (JC-61309), 01st Apr 1982.

Subedar Puran Chandra Pradhan (JC-61310F), 01st Apr 1982.

Subedar Ram Sagar Prasad Singh (JC-61311K), 01st Apr 1982.

To be Subs Sub (Clerk GD) (SD)

Sub Ram Chander (JC-63526P), 01st Sep 1981.

Sub S K Pandey (JC-73301N), 01st Nov 1981.

Sub Sher Ram (JC-73310N), 01st Jan 1982.

Sub M M Abraham (JC-73311W), 01st Jan 1982.

Sub Barla Athras (JC-75501F), 01st Jan 1982.

Sub R I Narayanaswamy (JC-75502K), 01st Jan 1982.

Sub Pankajakshan Pillai (JC-75503M), 01st Jan 1982.

Sub Pradeep Kumar (JC-75504P), 01st Jan 1982.

Sub Kashi Ram Sharma (JC-75505K), 01st Jan 1982.

Sub Jadubansh Singh (JC-15506A), 01st Jan 1982.

Sub Jamandlamudi Maria Dass (JC-75508L), 01st Jan 1982.

Sub Sant Kumar Sharma (JC-75509N), 01st Jan 1982.

Sub Chheda Singh (JC-75510H), 01st Feb 1982.

Sub Govind Pawar (JC-75511L), 01st Feb 1982.

Sub Badri Singh (JC-75514Y), 01st Mar 1982.

Sub Narayanan Variambath Nair (JC-75515F), 01st Mar 1982.

Sub Shiv Swarup Ray (JC-75516K), 01st Mar 1982.

Sub Vishwanath Joshi (JC-75474H), 01st Mar 1982.

Sub M V Abraham (JC-75475L), 01st Mar 1982.

Sub Harcharan Singh (JC-75477W), 01st Mar 1982.

Sub Ishwar Singh Dabas (JC-75478Y), 01st Mar 1982.

Sub N Narasimhulu (JC-75481L), 01st Mar 1982.

Sub Balbir Singh Khurana (JC-75483K), 01st Apr 1982.

Sub Damodaran Nambiar K K (JC-75484M), 01st Apr 1982.

Sub Appana Samy I (JC-75486X), 01st Apr 1982.

Sub S David (JC-75487A), 01st Apr 1982.

Sub Dalip Singh Strawala (JC-75454P), 01st Apr 1982.

Sub Karnail Singh (JC-75455X), 01st Apr 1982.

To be Subs Sub (Clerk GD)

Subedar Anandi Prasad Shukla (JC-61314X), 01st Apr 1982.

Subedar Lakshmi Kantha Rao Pendyala (JC-61315A), 01st Apr 1982.

Subedar Bhure Singh (JC-61316H), 01st Apr 1982.

Subedar G Vasudev Pillai (JC-63423H), 01st Apr 1982.

Subedar Prem Chand (JC-63424L), 01st Apr 1982.

Subedar Masidas Bhengra (JC-63425N), 01st Apr 1982.

Subedar Garka Ram (JC-63505L), 01st Apr 1982.

Subedar Hansa Datt Pant (JC-63508N), 01st Apr 1982.

Subedar Choyan Rayanoti Subramonia Kurup (JC-63506 N), 01st Apr 1982.

Subedar Panchanan Singh (JC-63509F), 01st Apr 1982.

Subedar Saradindu Sarkar (JC-63510K), 01st Apr 1982.

Subedar Ramaniyal Sundram (JC-63512F), 01st Apr 1982.

Subedar Banke Behari Singh (JC-63513K), 01st Apr 1982.

Subedar Vithal Sholapure (JC-64511L), 01st Apr 1982.

Subedar Raghubir Singh (JC-64512N), 01st Apr 1982.

Subedar Gurdial Singh Goraya (JC-64513N), 01st Apr 1982.

Subedar Pool Kunwar Bhardwaj (JC-64514Y), 01st Apr 1982.

Subedar Laxman Chand Sunny (JC-64515F), 01st Apr 1982.

Subedar Madhavan Parakkunni (JC-69003Y), 01st Apr 1982.

Subedar Ka'im Bakhs (JC-65441K), 01st Apr 1982.

Subedar Adam Khan (JC-65442M), 01st Apr 1982.

Subedar Ram Kumar Singh Yadava (JC-65444X), 01st Apr 1982.

Subedar Tulsi Ram (JC-65445A), 01st Apr 1982.

Subedar Puttalil Raman Nair Ramachandran Nair (JC-65446H), 01st Apr 1982.

Subedar Surojit Ganguly (JC-65447L), 01st Apr 1982.

Subedar Akshaihar Dwivedi (JC-65449W), 01st Apr 1982.

Subedar Kidar Singh Debas (JC-65450D), 01st Apr 1982.

Subedar Gurdev Singh (JC-65452W), 01st Apr 1982.

Subedar Akaram Patil (JC-69004F), 01st Apr 1982.

Subedar Ramachandran Pullanhot Kunnath (JC-69009A), 01st Apr 1982.

Subedar Daya Chand Jahakar (JC-70914A), 01st Apr 1982.

Subedar Dhiraj Singh Bist (JC-70915K), 01st Apr 1982.

Subedar Piare Lal (JC-70916M), 01st Apr 1982.

Subedar Bhagwan Singh Verma (JC-70917P), 01st Apr 1982.

Subedar Nafe Singh (JC-70918X), 01st Apr 1982.

Subedar Jagdish Prasad Sharma (JC-70919A), 01st Apr 1982.

Subedar Challiyil Ittikunju Gangadharan (JC-70920P), 01st Apr 1982.

Subedar Gridhari Lal (JC-70922A), 01st Apr 1982.

Subedar Hari Prasad (JC-70923H), 01st Apr 1982.

Subedar Megruvelil Cherian Baby (JC-70924L), 01st Apr 1982.

Subedar Amir Singh (JC-70925N), 01st Apr 1982.

Subedar Chandigi Ram Puri (JC-70927Y), 01st Apr 1982.

Subedar Chiranjilal Yadav (JC-71353K), 01st Apr 1982.

Subedar Rup Singh Katoch (JC-71355P), 01st Apr 1982.

Subedar Hoshier Singh Sivawag (JC-73316P), 01st Apr 1982.

Subedar Channan Singh Gill (JC-71356X), 01st Apr 1982.

Subedar Ram Sarup (JC-73317X), 01st Apr 1982.

Subedar Paras Nath Shukla (JC-73318A), 01st Apr 1982.

Subedar Nuthangi Prakasam (JC-73320X), 01st Apr 1982.

Subedar Jagan Nath (JC-73322H), 01st Apr 1982.

Subedar Pakhar Singh Sohal (JC-73324N), 01st Apr 1982.

Subedar Prahlad Singh Yadav (JC-75459N), 01st Apr 1982.

Subedar Nand Lal Yadav (JC-75461L), 01st Apr 1982.

Subedar Umed Singh Lamba (JC-75463W), 01st Apr 1982.

Subedar Sham Lal Uppal (JC-75465), 07th Apr 1982.

Subedar Nanda Singh Negi (JC-75466K), 01st Apr 1982.

Subedar Sohan Lal Nagpal (JC-75467M), 01st Apr 1982.

Subedar Shivaji Singh (JC-75468P), 01st Apr 1982.

Subedar Puran Chandra Pandey (JC-75469X), 01st Apr 1982.

Subedar Kandan Kulath Koshy Koshy (JC 75470M), 01st Apr 1982.

Subedar Satpal Mehta (JC-75766L), 01st Apr 1982.

Subedar Pichai Muthu Francis Antoni (JC-75767N), 01st Apr 1982.

Subedar Biswa Nath Pandey (JC-75762P), 01st Apr 1982.

Subedar Joginder Singh (JC-75763X), 01st Apr 1982.

Subedar Mahadeo Wakude (JC-75765H), 01st Apr 1982.

Subedar Dung Raj Sharma (JC-86194P), 01st Apr 1982.

Subedar Itwar Singh (JC-86784N), 01st Apr 1982.

Subedar Ram Ling Sankaya (JC-86786Y), 01st Apr 1982.

Subedar Chhote Lal Gupta (JC-86787F), 01st Apr 1982.

Subedar Munner Tiwari (JC-86788K), 01st Apr 1982.

Subedar Inder Singh (JC-86789M), 01st Apr 1982.

Subedar Manghu Singh Rathore (JC-86790F), 01st Apr 1982.

Subedar Rathamani Mohana Rajan (JC-89048A), 01st Apr 1982.

Subedar Darbari Lal (JC-89049H), 01st Apr 1982.

Subedar Bhom Singh Yadav (JC-89050X), 01st Apr 1982.

Subedar Krishnan Nair K (JC-89051A), 01st Apr 1982.

Subedar A P Arunachalam (JC-89052H), 01st Apr 1982.

Subedar Anil Kumar Basu (JC-89053L), 01st Apr 1982.

Subedar Daya Ram Joshi (JC-89054N), 01st Apr 1982.

Subedar John Varghese (JC-89055W), 01st Apr 1982.

Subedar Gulzar Singh (JC-89056Y), 01st Apr 1982.

Subedar Surinder Mohan (JC-89057F), 01st Apr 1982.

Subedar Saral Ram (JC-89058K), 01st Apr 1982.

Subedar Bhim Singh Solunke (JC-57525H), 01st Apr 1982.

Subedar Krishna Pal Singh (JC-59419H), 01st Apr 1982.

Subedar Ram Saroop (JC-69005K), 01st Apr 1982.

Subedar Shiv Rattan Singh Chauhan (JC-75460N), 01st Apr 1982.

Subedar Hari Ram (JC-89059M), 01st Apr 1982.

Subedar Bhim Sen Kapur (JC-89060F), 01st Apr 1982.

Subedar Ram Singh Rawat (JC-89061K), 01st Apr 1982.

Subedar Satya Narain Thakur (JC-89062M), 01st Apr 1982.

Subedar Raj Keshwar Ram (JC-89063P), 01st Apr 1982.

Subedar Onkar Chand (JC-89527F), 01st Apr 1982.

Subedar R Shanmuga Velu (JC-89528K), 01st Apr 1982.

Subedar Jagat Singh Bhaunriyal (JC-89529M), 01st Apr 1982.

To be Nb Sub Personal Assistants

Hav Sivanathan TA (1533398Y now JC-114938N), 27th Jul 1981.*

* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10th Jul 1981 without effect on pay and allowances).

Hav Dewmuni Chawdhary (6896789M now JC-114939W), 10th Jul 1981.

Hav Till Bahadur Poudyal Chhetri (1441308M now JC-114940L), 25th Jan 1982**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10th Jul 1981 without effect on pay and allowances).

Hav Rajan P M (6644447A now JC-114941N), 29th Sep 1981.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 1981 without effect on pay and allowances).

Hav Surendra Singh Rana (6645490N now JC-114942W), 01st Sep 1982.

Hav Nishi Kant Mishra (6643137H now JC-114943Y), 12th Sep 1981.@@

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 1981 without effect on pay and allowances).

Hav Girish Narain Singh (1445520F now JC-114944F), 01st Sep 1981.

Hav Amir Singh Sandhu (1445757Y now JC-114945K), 01st Sep 1981.

Hav P J Augustine (6299888P now JC-114946M), 03rd Sep 1981.

Hav Simarjit Singh Thind (6643092N now JC-114947P), 03rd Sep 1981.

Hav Harbans Singh Rana (13813569F now JC-114948X), 03rd Sep 1981.

Hav Padmanabhan K (6643005P now JC-114949A), 04th Sep 1981.

CLERK GD (SD)

Hav Ichhamov Bhattacharjee (6635613F now JC-114950P), 01st Nov 1981.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Aug 1981 without effect on pay and allowances).

Hav Bhimaji Shankar Shindgi (6634683N now JC-114951X), 01st Aug 1981.

Hav Ramachandran Nair M K 6635850L now JC-114952A), 13th Dec 1981.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 1981 without effect on pay and allowances).

Hav Nanda Dulal Dey (6635981W now JC-114953H), 19th Jan 1982.&

& (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 1981 without effect on pay and allowances).

Hav Rajappan Nair P R (6635805Y now JC-114954L), 01st Dec 1981.

Smt B NAGESWARI, Under Secy.

(MILITARY ENGINEER SERVICES)

No. 1836, dated 6th August 1982.—The undermentioned officers resigned from service wef the dates indicated against their names :—

Shri Randhir Singh AEE (E/M)—18th Feb 1974 (AN).

MES-175208 Shri Vijay Vasudeorao Kulkarni AEE B/R (Ty)—20th Apr 1982 (AN).

N N MOHANTA, Under Secy.

No. 1837, dated 4th August 1982.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army service having attained the age of compulsory retirement :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Brig Hari Singh (IC 9536X) Infantry—31st Jan 1982 (AN).

Brig H C Singh (IC 5946W) Infantry—31st Jan 1982 (AN).

Brig K S S Bhagat (IC 7181Y) EME—31st Jan 1982 (AN).

Brig I R Sachdev (IC 9167L) EME—31st Jan 1982 (AN).

No. 1838, dated 4th August 1982.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army service at their own request for personal reasons and to

transfer them to the Regular Reserve of Officers (Class 'X') wef the date of their retirement till 31st Oct 1986 :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Col M B Ranade (IC 7112H) Artillery—24th May 1982 (FN).

Lt Col I B Goel (IC 7304A) Engineers—31st Mar 1982 (FN).

H C SINGHIAL, Asstt Military Secy.

(MILITARY ENGINEER SERVICES)

No. 1839, dated 6th August 1982.—The undermentioned officers retired from service wef the dates indicated against their names :—

MES-19124 Shri Prem Narain Sharma BSO (Ty), SK I (Pt)—30th Jun 1982 (AN).

MES-8462901 Shri D D Sharma BSO (Ty), Supvr B/S I (Pt)—30th Jun 1982 (AN).

MES-7893 Shri T A Dakshinamurthy Mudaliar BSO (Ty), Supvr B/S Gde II (PT)—30th Jun 1982 (AN).

MES-143019 Shri K V Rajakumaran Nayar BSO (Ty)—30th Jun 1982 (AN).

No. 1840, dated 6th August 1982.—The undermentioned officer Voluntarily retired from service wef the date indicated against his name :—

MES-10244 Shri V Sankaran Balan BSO (Ty), Supvr B/S Gde II (Pt)—30th Jun 1982 (AN).

N N MOHANTA, Under Secy.

No. 1841, dated 28th July 1982.—The undermentioned officers forfeit service as is shown against the name by sentence of the summary trial :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Major S M Akbar (IC 23052) Inf to forfeit 12 months of past service for the purpose of promotion—7th Apr 1982.

Capt Deepak Dheermy (IC 27683) Arty, to forfeit three months service for purpose of promotion—19th Apr 1982.

CORRIGENDA

No. 1842, dated 27th July 1982.—(i) In the G of I Min of Def Notn No. 960/78 published in the G of I dated 13th May 1978 under the heading 'Regular Army' Permanent Commission and sub heading Capt to be Major :—

For—N P Singh (IC 18823) AOC, 15th Oct 1977.

Read—N P Singh (IC 18823) ASC, 15th Oct 1977.

(ii) In the G of I Min of Def Notn No. 2386/81 published in the G of I dated 28th Nov 1981 under the heading 'Regular Army' Permanent Commission and sub heading Capt to be Major :—

For—K S Randhawa (IC 20787) AOC, 4th Feb 1980.

Read—K S Randhawa (IC 20787) AOC, 15th Jan 1978.

SUBHASH CHANDER, Lt Col, AMS.

No. 1843, dated 3rd August 1982.—In M of D Notn No. 890 dated 31st Mar 1981, published in the G of I dated 25th Apr 1981, under heading 'REGULAR ARMY', sub heading 'Army Service Corps (Mechanical Transport)', below 'To be Nb Sub' :—

For Hav Nand Singh (No. 6602936K now JC-101598 X), 30th May 1980.£

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1980 without effect on pay and allowances).

Read—Hav Nand Singh (No. 6602936K now JC-101598 X), 30th May 1980.

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1979 without effect on pay and allowances).

NAVY BRANCH

No. 1844, dated 31st July 1982.—The President is pleased to appoint the following Asstt Armament Supply Officers as Dy. Armament Supply Officer Gde II on ad-hoc basis for a period of 6 months from the dates shown against their names :—

Shri P V G Bhaskara Rao—01st Feb 1982 to 31st Jul 1982.

Shri T K Govindan—19th Jan 1982 to 18th Jul 1982.

Shri D V A Narasimham—19th Jan 1982 to 18th Jul 1982.

Shri R R Pillai—02nd Feb 1982 to 01st Aug 1982.

Shri S Prakasa Rao—01st Feb 1982 to 31st Jul 1982.

Shri P S Murthy—19th Jan 1982 to 18th Jul 1982.

No. 1845, dated 31st July 1982.—The President is pleased to appoint Shri L Narasinga Rao, Sr Foreman (AWS) as offg Asstt Armament Supply Officer for the periods and against the leave vacancies indicated as under :—

- (a) Offg Asstt Armament Supply Officer for 40 days wef 05th Apr 1982 to 14th May 1982 vice Shri G Subramanyam, Asstt Armament Supply Officer granted leave.
- (b) Offg Asstt Armament Supply Officer for 44 days wef 17th May 1982 to 29th Jun 1982 vice Shri V Selvarajan, Asstt Armament Supply Officer granted leave.

M C JUNEJA, Under Secy.

No. 1846, dated 25th June 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

INDIAN NAVY
PERMANENT COMMISSION
EXECUTIVE BRANCH

SLTs TO BE LTs

P Murugesan (01958Z), 1st Jann 1981.

J Kumar (01912W), 16th Feb 1981.

K M Desai (01950F), 16th May 1981.

Girish Luthra (02011W), Y V C Rai (01996K), R K Okhandiar (02020R) and D Malhotra (01962H), 1st July 1981.

R S Khatri (01984H) and T Banerjee (01994F), 1st Aug 1981.

S R Krishna (02007K), V Venugopal (01980Z) and A S Raghuvanshi (01989W), 16th Aug 1981.

A Chatterjee (01947Z) and R M Purandare (02072H), 1st Apr 1982.

K S Chundawat (01997N), B K Patnaik (02071F), S B S Mann (02064R), S Shankar (02088W), Lalit Mohan (02062K), S K Sinha (02086R) and M Nambiar (02069A), 16th Apr 1982.

A K Sinha (01977), M C Joshi (02006H), Ashok Carrol (01999T), M J Singh (02028H) and G V Ramakrishna (02076T), 1st May 1982.

R K Srivastava (02039H), L Kumar (02056Y), H S Pramanick (02073K) and K K Uppal (02091A), 16th May 1982 vide Regulations 121 of Regs Navy Part III Statutory.

AG SLTs TO BE SLTs

N S M Thomas (01907H), 30th Sep 1981 with seniority of (for promotion only) 1st Jul 1978 and T M Kashokan (01991Z), 7th Dec 1980 with seniority of (for promotion only) 1st July 1979 vide Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory.

SLTs TO BE LTs

N S M Thomas (01907H), 8th Jan 1982 and T M K Ashokan (01991Z), 16th Dec 1982 vide Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory.

T R MEHTA, Dy Dir of Pers (JOA&R).
AIR HADQUARTERS

No. 1847, dated 20th Mar 1982.—The President is pleased to make the following appointment in the AFHQ Civil Service, till further orders :—

Shri Om Parkash, Pt CSO at Offg Selection Grade Officer wef 19th Mar 1982.

Shri O P Mayn, Pt/CSO as offg CSO wef 05th Nov 1981.

Shrimati S D Sampath, Pt/CSO as offg CSO wef 20th Mar 1982.

Shri H P Singhal, Pt/CSO as offg CSO wef 01st Mar 1982.

Shri P D Chandrakantan, Pt ACSO as offg CSO wef 01st Mar 1982.

Shri K V Raghavan Menon, Pt ACSO as offg CSO wef 01st Apr 1982.

Shri Inder Dayal Rawat, Pt/ACSO as offg CSO wef 01st Mar 1982.

Shri R B Muthuswamy, Pt Asstt as offg ACSO wef 01st Mar, 1982.

Shri Darshan Singh, Pt Asstt as offg ACSO wef 19th Mar, 1982.

Shri B Verma, Pt Asstt as offg ACSO wef 20th Mar 1982 (AN).

Shri C S Ahluwalia, Pt Asstt as offg ACSO wef 02nd Apr 1982.

Shri Kalwant Singh, Pt Asstt as offg ACSO wef 01st Apr 1982.

Shri Janmajai, Pt Asstt as offg ACSO wef 01st Apr, 1982.

DULI CHANDRA, Up Mukhya Prashasan Adhikari.

(AIR FORCE)

No. 1848, dated 29th July 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

INDIAN AIR FORCE

LGS BRANCH

FLT LT TO BE SQN LDR

U K MUNSHI (11702), 23rd Jun 1981.

J MITTER, ADP03(F).